



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022020-216049  
CG-DL-E-10022020-216049

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]  
No. 548]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2020/माघ 18, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2020/MAGHA 18, 1941

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2020

का.आ. 598(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3342(अ) तारीख 21 सितंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के श्री मुक्तसर साहिब जिले में NH7 के कि.मी. 109 से कि.मी.93 (बठिंडा-मलौत सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21 अक्टूबर 2019" को "द इंडियन एक्सप्रेस" और "अजीत (पंजाबी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

पंजाब राज्य के श्री मुक्तसर साहिब जिले में NH7 के कि.मी. 109.00 से कि.मी.93.00 (बठिंडा-मलौत सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: श्री मुक्तसर साहिब			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गिदडरबहा				
	गांव का नाम: भारू (9)				
1	147	निजी	गैर मुमकिन+नहरी	0.0075879	मनजीत कौर विधवा और सुखचरण सिंह जगजीत सिंह पुत्र हरमंदिर सिंह 1/2 और रेशम सिंह पुत्र करनैल सिंह 1/2 (147 )
2	148	निजी	नहरी	0.0126465	अजमेर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह पुत्र सुंदर सिंह 55/8361 भाग बाइकर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह पुत्र सुंदर सिंह 93/929 गुरदेव कौर विधवा गुरचरण सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह भाग 46/2787 सुखराज सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र दान सिंह 385/8361 बलबीर कौर की बेटी दान सिंह पुत्र दारा सिंह 577/8361 भाग नसीब कौर पुत्री दान सिंह पुत्र दारा सिंह 577/8361 सुखदेव कौर विधवा गाहवा सिंह भाग 257/11148 रामपाल सिंह पुत्र,

					<p>गाहवा सिंह पुत्र दान सिंह,  257/11148 जलौर सिंह पुत्र गहव्वा  सिंह पुत्र दान सिंह भाग 257/11148  कौर सिंह पुत्र गहव्वा सिंह पुत्र दान  सिंह भाग 257/11148 जसवीर कौर  विधवा रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह  भाग 385/25083 गुरमेल सिंह पुत्र  रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह  385/25083 भाग गुड्डी पुत्री रणजीत  सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083  वीरपाल कौर पुत्री रणजीत सिंह पुत्र  दान सिंह 385/25083 भाग  छिंदरपाल कौर पुत्री रणजीत सिंह पुत्र  दान सिंह 385/25083 भाग गिंदो  डब्ल्यू / ओ रणजीत सिंह पुत्र दान  सिंह 385/25083 भाग सुशील देवी  पत्नी हंस राज पुत्र ठाकुर दास भाग  139/8361 कंचन पत्नी परदम्भन  सिंह पुत्र हरभजन सिंह 296/8361  शेयर भूषण कुमार पुत्र मनोहर सिंह  पुत्र जीत सिंह 329/8361 अशोक  कुमार पुत्र चरणजी लाल पुत्र शिव  चंद 592/8361 सुखपाल सिंह पुत्र  बलदेव सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह  11/16722 भाग सुखविंदर सिंह पुत्र  बलदेव सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह  11/16722 भाग हरजिंदर सिंह पुत्र  दर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह 5/16722  भाग लखविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह  पुत्र बलदेव सिंह भाग 5/16722  मनजीत कौर पत्नी सुखविंदर सिंह पुत्र  बलदेव सिंह 41/8361 हरचरण सिंह  पुत्र बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह  109/8361 भाग दीप इंदर सिंह पुत्र  बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह 107/5574  भाग शुष्मा देवी पत्नी कृष्णा कुमार  पुत्र दीप चंद 64/8361 शेयर किरण  देवी पत्नी बल्ली राम पुत्र दीप चंद  निवासी गिदबाह 167/8361 नीलम  जैन पुत्री कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>116/25083 भाग कमलेश जैन पुत्री कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद 116/25083 भाग सुनील जैन पुत्र कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद 116/25083 भाग रणजीत कौर पत्नी बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह 98/2787 भाग परमजीत कौर बेटी नंद कौर बेटी धन सिंह भाग 289/8361 गुरदास कौर पुत्री नंद कौर पुत्री दान सिंह भाग 289/8361 हरदीप सिंह पुत्र काका सिंह की पुत्री मित्त सिंह 4/8361 अरुणजीत सिंह सोढी पुत्र मनजिंदर सिंह पुत्र बछित्रा सिंह 25/16722 तरसेम लाल पुत्र प्रकाश चंद पुत्र बर्मा राम 25/16722 भाग मणि पुत्र विजय कुमार पुत्र हरनेक सिंह 11/5574 भाग सूबा सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 7/8361 दर्शना देवी पत्नी अमृतलाल पुत्र सिरी राम 2/929 अमर पाल पुत्र मेहर चंद पुत्र काका राम 1/929 शेयर भरफूर सिंह पुत्र मुख्तार सिंह पुत्र किशन सिंह 2/929 जुगल किशोर पुत्र हंस राज पुत्र जय राम 25/8361 भाग अमित कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार पुत्र बंसी राम 1/929 जसविंदर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह भाग 19/16722 धर्म सिंह पुत्र गुरदीप सिंह पुत्र पाल सिंह 19/16722 भाग तरसेम सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र मेहर सिंह 22/8361 मोहिंदरपाल पुत्र सोनम राम पुत्र निहाला राम 4/8361 चरणजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह पुत्र मेला राम 1/16722 भाग परमजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह का बेटा महिंदर सिंह 47/16722 गुरदेव सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र मिट सिंह 4/929 रणजीत सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र काका सिंह 1/1858 भाग सिमरजीत सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>काका सिंह 1/1858 भाग बलबीर सिंह पुत्र दारा सिंह पुत्र प्रेम सिंह 2/929 हरबंस लाल पुत्र प्रकाश चंद्र पुत्र बर्मा राम 5/5574 भाग तरसेम लाल पुत्र प्रकाश चंद्र पुत्र बर्मा राम 5/5574 भाग सुनीता रानी पत्नी परषोत्तम लाल पुत्र प्राद्याल 2/929 रुचिका जिंदल पत्नी मनोज कुमार पुत्र दर्शन लाल 2/929 नीलम जैन पत्नी सुभाष जैन पुत्र महिगा राम 65/16722 भाग रजनी पत्नी रास्टर दीपक पुत्र सुरिंदर कुमार 65/16722 भाग सुरजीत कौर पत्नी मुख्तियार सिंह पुत्र लाल सिंह 23/8361 सरबजीत कौर पत्नी कौर सिंह पुत्र बूटा सिंह 47/16722 भाग गुरदेव सिंह पुत्र जगगर सिंह पुत्र भगवान सिंह भाग 23/8361 राकेश रानी पत्नी सुरिंदर कुमार के पुत्र कश्मीरी लाल 1/1858 सुदेश रानी पत्नी सुरेश कुमार पुत्र नाथू राम 1/1858 हर्षित बंसल पुत्र अशोक बंसल पुत्र बिहारी लाल 10/929 भाग अनमोल बंसल पुत्र अशोक बंसल पुत्र बिहारी लाल 10/929 भाग वीणा रानी पत्नी अमित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 29/16722 भाग गुरकीरत सिंह पुत्र चतर सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह 2/929 शिवराज सिंह पुत्र रूप सिंह सिंह पुत्र निशान सिंह 4/8361 शिमला रानी पत्नी सुरिंदर पाल तगहरी पुत्र हरबंस लाल 8/8361 शेयर गुड्डी देवी पत्नी चिमन लाल पुत्र उदासी राम 1/929 शेयर वीणा रानी पत्नी बलदेव कुमार पुत्र बिहारी लाल 91/2787 शेयर कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र दान सिंह 385/8361 केएच नं- 148 (5-8), केएच नं -149 (2-3), केएच नं - 150 (1-9), सोम प्रकाश और नरेश कुमार पुत्र तेज राम के। संख्या -149</p>
--	--	--	--	--

					(0-17) (148 )
3	149	निजी	गैर मुमकिन+नहरी	0.0050586	<p>अजमेर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह पुत्र सुंदर सिंह 55/8361 भाग बाइकर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह पुत्र सुंदर सिंह 93/929 गुरदेव कौर विधवा गुरचरण सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह भाग 46/2787 सुखराज सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र दान सिंह 385/8361 बलबीर कौर की बेटी दान सिंह पुत्र दारा सिंह 577/8361 भाग नसीब कौर पुत्री दान सिंह पुत्र दारा सिंह 577/8361 सुखदेव कौर विधवा गाहवा सिंह भाग 257/11148 रामपाल सिंह पुत्र, गाहवा सिंह पुत्र दान सिंह, 257/11148 जलौर सिंह पुत्र गहव्वा सिंह पुत्र दान सिंह भाग 257/11148 कौर सिंह पुत्र गहव्वा सिंह पुत्र दान सिंह भाग 257/11148 जसवीर कौर विधवा रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह भाग 385/25083 गुरमेल सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 भाग गुड्डी पुत्री रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 वीरपाल कौर पुत्री रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 भाग छिंदरपाल कौर पुत्री रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 भाग गिंदो डब्ल्यू / ओ रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 भाग सुशील देवी पत्नी हंस राज पुत्र ठाकुर दास भाग 139/8361 कंचन पत्नी परदम्मन सिंह पुत्र हरभजन सिंह 296/8361 शेयर भूषण कुमार पुत्र मनोहर सिंह पुत्र जीत सिंह 329/8361 अशोक कुमार पुत्र चरणजी लाल पुत्र शिव चंद 592/8361 सुखपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह 11/16722 भाग सुखविंदर सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह</p>

				<p>11/16722 भाग हरजिंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह 5/16722 भाग लखविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह भाग 5/16722 मनजीत कौर पत्नी सुखविंदर सिंह पुत्र बलदेव सिंह 41/8361 हरचरण सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह 109/8361 भाग दीप इंदर सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह 107/5574 भाग शुष्मा देवी पत्नी कृष्णा कुमार पुत्र दीप चंद 64/8361 शेयर किरण देवी पत्नी बल्ली राम पुत्र दीप चंद निवासी गिदबाह 167/8361 नीलम जैन पुत्री कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद 116/25083 भाग कमलेश जैन पुत्री कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद 116/25083 भाग सुनील जैन पुत्र कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद 116/25083 भाग रणजीत कौर पत्नी बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह 98/2787 भाग परमजीत कौर बेटी नंद कौर बेटी धन सिंह भाग 289/8361 गुरदास कौर पुत्री नंद कौर पुत्री दान सिंह भाग 289/8361 हरदीप सिंह पुत्र काका सिंह की पुत्री मित्त सिंह 4/8361 अरुणजीत सिंह सोढी पुत्र मनजिंदर सिंह पुत्र बछित्रा सिंह 25/16722 तरसेम लाल पुत्र प्रकाश चंद पुत्र बर्मा राम 25/16722 भाग मणि पुत्र विजय कुमार पुत्र हरनेक सिंह 11/5574 भाग सूबा सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 7/8361 दर्शना देवी पत्नी अमृतलाल पुत्र सिरी राम 2/929 अमर पाल पुत्र मेहर चंद पुत्र काका राम 1/929 शेयर भरफूर सिंह पुत्र मुख्तार सिंह पुत्र किशन सिंह 2/929 जुगल किशोर पुत्र हंस राज पुत्र जय राम 25/8361 भाग अमित कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार पुत्र बंसी राम 1/929 जसविंदर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह भाग</p>
--	--	--	--	---

				<p>19/16722 धर्म सिंह पुत्र गुरदीप सिंह पुत्र पाल सिंह 19/16722 भाग तरसेम सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र मेहर सिंह 22/8361 मोहिंदरपाल पुत्र सोनम राम पुत्र निहाला राम 4/8361 चरणजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह पुत्र मेला राम 1/16722 भाग परमजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह का बेटा महिंदर सिंह 47/16722 गुरदेव सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र मिट सिंह 4/929 रणजीत सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र काका सिंह 1/1858 भाग सिमरजीत सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र काका सिंह 1/1858 भाग बलबीर सिंह पुत्र दारा सिंह पुत्र प्रेम सिंह 2/929 हरबंस लाल पुत्र प्रकाश चंद्र पुत्र बर्मा राम 5/5574 भाग तरसेम लाल पुत्र प्रकाश चंद्र पुत्र बर्मा राम 5/5574 भाग सुनीता रानी पत्नी परषोत्तम लाल पुत्र प्राद्याल 2/929 रुचिका जिंदल पत्नी मनोज कुमार पुत्र दर्शन लाल 2/929 नीलम जैन पत्नी सुभाष जैन पुत्र महिगा राम 65/16722 भाग रजनी पत्नी रास्टर दीपक पुत्र सुरिंदर कुमार 65/16722 भाग सुरजीत कौर पत्नी मुख्तियार सिंह पुत्र लाल सिंह 23/8361 सरबजीत कौर पत्नी कौर सिंह पुत्र बूटा सिंह 47/16722 भाग गुरदेव सिंह पुत्र जगगर सिंह पुत्र भगवान सिंह भाग 23/8361 राकेश रानी पत्नी सुरिंदर कुमार के पुत्र कश्मीरी लाल 1/1858 सुदेश रानी पत्नी सुरेश कुमार पुत्र नाथू राम 1/1858 हर्षित बंसल पुत्र अशोक बंसल पुत्र बिहारी लाल 10/929 भाग अनमोल बंसल पुत्र अशोक बंसल पुत्र बिहारी लाल 10/929 भाग वीणा रानी पत्नी अमित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 29/16722 भाग गुरकीरत सिंह पुत्र चतर सिंह</p>
--	--	--	--	---

					<p>पुत्र गुरबख्श सिंह 2/929 शिवराज सिंह पुत्र रूप सिंह सिंह पुत्र निशान सिंह 4/8361 शिमला रानी पत्नी सुरिंदर पाल तगहरी पुत्र हरबंस लाल 8/8361 शेयर गुड्डी देवी पत्नी चिमन लाल पुत्र उदासी राम 1/929 शेयर वीणा रानी पत्नी बलदेव कुमार पुत्र बिहारी लाल 91/2787 शेयर कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र दान सिंह 385/8361 केएच नं- 148 (5-8), केएच नं -149 (2-3), केएच नं - 150 (1-9), सोम प्रकाश और नरेश कुमार पुत्र तेज राम के। संख्या -149 (0-17) (149)</p>
4	150	निजी	नहरी	0.0151758	<p>अजमेर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह पुत्र सुंदर सिंह 55/8361 भाग बाइकर सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह पुत्र सुंदर सिंह 93/929 गुरदेव कौर विधवा गुरचरण सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह भाग 46/2787 सुखराज सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र दान सिंह 385/8361 बलबीर कौर की बेटी दान सिंह पुत्र दारा सिंह 577/8361 भाग नसीब कौर पुत्री दान सिंह पुत्र दारा सिंह 577/8361 सुखदेव कौर विधवा गाहवा सिंह भाग 257/11148 रामपाल सिंह पुत्र, गाहवा सिंह पुत्र दान सिंह, 257/11148 जलौर सिंह पुत्र गहव्वा सिंह पुत्र दान सिंह भाग 257/11148 कौर सिंह पुत्र गहव्वा सिंह पुत्र दान सिंह भाग 257/11148 जसवीर कौर विधवा रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह भाग 385/25083 गुरमेल सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 भाग गुड्डी पुत्री रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 वीरपाल कौर पुत्री रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 भाग छिंदरपाल कौर पुत्री रणजीत सिंह पुत्र</p>

					<p>दान सिंह 385/25083 भाग गिंदो डब्ल्यू / ओ रणजीत सिंह पुत्र दान सिंह 385/25083 भाग सुशील देवी पत्नी हंस राज पुत्र ठाकुर दास भाग 139/8361 कंचन पत्नी परदम्भन सिंह पुत्र हरभजन सिंह 296/8361 शेयर भूषण कुमार पुत्र मनोहर सिंह पुत्र जीत सिंह 329/8361 अशोक कुमार पुत्र चरणजी लाल पुत्र शिव चंद 592/8361 सुखपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह 11/16722 भाग सुखविंदर सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह 11/16722 भाग हरजिंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह 5/16722 भाग लखविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह भाग 5/16722 मनजीत कौर पत्नी सुखविंदर सिंह पुत्र बलदेव सिंह 41/8361 हरचरण सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह 109/8361 भाग दीप इंदर सिंह पुत्र बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह 107/5574 भाग शुष्मा देवी पत्नी कृष्णा कुमार पुत्र दीप चंद 64/8361 शेयर किरण देवी पत्नी वल्ली राम पुत्र दीप चंद निवासी गिदबाह 167/8361 नीलम जैन पुत्री कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद 116/25083 भाग कमलेश जैन पुत्री कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद 116/25083 भाग सुनील जैन पुत्र कश्मीरी लाल पुत्र दीप चंद 116/25083 भाग रणजीत कौर पत्नी बाबू सिंह पुत्र सरूप सिंह 98/2787 भाग परमजीत कौर बेटी नंद कौर बेटी धन सिंह भाग 289/8361 गुरदास कौर पुत्री नंद कौर पुत्री दान सिंह भाग 289/8361 हरदीप सिंह पुत्र काका सिंह की पुत्री मित्त सिंह 4/8361 अरुणजीत सिंह सोढी पुत्र मनजिंदर सिंह पुत्र बछित्रा सिंह 25/16722 तरसेम लाल पुत्र प्रकाश</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>चंद पुत्र बर्मा राम 25/16722 भाग मणि पुत्र विजय कुमार पुत्र हरनेक सिंह 11/5574 भाग सूबा सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 7/8361 दर्शना देवी पत्नी अमृतलाल पुत्र सिरी राम 2/929 अमर पाल पुत्र मेहर चंद पुत्र काका राम 1/929 शेयर भरफूर सिंह पुत्र मुख्तार सिंह पुत्र किशन सिंह 2/929 जुगल किशोर पुत्र हंस राज पुत्र जय राम 25/8361 भाग अमित कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार पुत्र बंसी राम 1/929 जसविंदर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह भाग 19/16722 धर्म सिंह पुत्र गुरदीप सिंह पुत्र पाल सिंह 19/16722 भाग तरसेम सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र मेहर सिंह 22/8361 मोहिंदरपाल पुत्र सोनम राम पुत्र निहाला राम 4/8361 चरणजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह पुत्र मेला राम 1/16722 भाग परमजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह का बेटा महिंदर सिंह 47/16722 गुरदेव सिंह पुत्र पूरन सिंह पुत्र मिट सिंह 4/929 रणजीत सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र काका सिंह 1/1858 भाग सिमरजीत सिंह पुत्र महिंदर सिंह पुत्र काका सिंह 1/1858 भाग बलबीर सिंह पुत्र दारा सिंह पुत्र प्रेम सिंह 2/929 हरबंस लाल पुत्र प्रकाश चंद्र पुत्र बर्मा राम 5/5574 भाग तरसेम लाल पुत्र प्रकाश चंद्र पुत्र बर्मा राम 5/5574 भाग सुनीता रानी पत्नी परषोत्तम लाल पुत्र प्राद्याल 2/929 रुचिका जिंदल पत्नी मनोज कुमार पुत्र दर्शन लाल 2/929 नीलम जैन पत्नी सुभाष जैन पुत्र महिगा राम 65/16722 भाग रजनी पत्नी रास्टर दीपक पुत्र सुरिंदर कुमार 65/16722 भाग सुरजीत कौर पत्नी मुख्तियार सिंह पुत्र लाल सिंह 23/8361</p>
--	--	--	--	--

					<p>सरबजीत कौर पत्नी कौर सिंह पुत्र बूटा सिंह 47/16722 भाग गुरदेव सिंह पुत्र जग्गर सिंह पुत्र भगवान सिंह भाग 23/8361 राकेश रानी पत्नी सुरिंदर कुमार के पुत्र कश्मीरी लाल 1/1858 सुदेश रानी पत्नी सुरेश कुमार पुत्र नाथू राम 1/1858 हर्षित बंसल पुत्र अशोक बंसल पुत्र बिहारी लाल 10/929 भाग अनमोल बंसल पुत्र अशोक बंसल पुत्र बिहारी लाल 10/929 भाग वीणा रानी पत्नी अमित कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 29/16722 भाग गुरकीरत सिंह पुत्र चतर सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह 2/929 शिवराज सिंह पुत्र रूप सिंह सिंह पुत्र निशान सिंह 4/8361 शिमला रानी पत्नी सुरिंदर पाल तगहरी पुत्र हरबंस लाल 8/8361 शेयर गुड्डी देवी पत्नी चिमन लाल पुत्र उदासी राम 1/929 शेयर वीणा रानी पत्नी बलदेव कुमार पुत्र बिहारी लाल 91/2787 शेयर कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह पुत्र दान सिंह 385/8361 केएच नं- 148 (5-8), केएच नं -149 (2-3), केएच नं - 150 (1-9), सोम प्रकाश और नरेश कुमार पुत्र तेज राम के। संख्या -149 (0-17) (150)</p>
5	155	निजी	गैर मुमकिन	0.0202344	<p>नरेंद्र कुमार पुत्र चिमन लाल पुत्र मुंशी राम 4 भाग विनोद कुमार पुत्र बलदेव सहाय पुत्र कंवर सेन 189 रमेश कुमार भाग 4 राकेश कुमार 219/1872 भाग पुत्र अमर नाथ पुत्र लच्छू मल्ल - सज्जल प्रेम पिसर मुतवना रामनाथ पुत्र हंस राज भाग 207 देश राज पुत्र जगन नाथ पुत्र लाखु माल 198 भाग सरूप चंद पुत्र रिखी राम 45 भाग जयंत गर्ग करिषि गर्ग पुत्र राकेश कुमार पुत्र सरूप चंद</p>

					बा भाग 20 बराबर भाग सुषमा पत्नी कैलास चंद्र पुत्र सरूप चंद 19 भाग परम्पजोत उर्फ प्रशांत पुत्र रमेश कुमार पुत्र अमर नाथ 81 भाग परवीन रानी की पत्नी तरसेम कुमार के बेटे बाबू राम ने 12 शेयर किए नीलम रानी की पत्नी विनोद कुमार के बेटे बलदेव सहाय 12 शेयर असीस कुमार पुत्र राजिंदर कुमार पुत्र हुकम चंद 12/936 ओम प्रकाश पुत्र देस राज पुत्र सोन जगन नाथ 47/1872 भाग (155 )
6	Rasta	सरकारी( पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत ( )
गांव का नाम: दौला (8)					
7	24//10	निजी	नहरी	0.0328809	चरणजीत सिंह और जसपाल सिंह पुत्रअवतार सिंह 1138/1324, अमरजीत कौर पत्नी अवतार सिंह 93/662 (24//10 )
8	25//13	निजी	नहरी	0.0556446	अमरजीत सिंह पुत्र मुख्तार सिंह पुत्र भाग सिंह 5/552 नछत्तर सिंह पुत्र लाल सिंह पुत्र थोबा सिंह 1/3 भाग गुरजंत सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र लाल सिंह 1/18 बलविंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र लाल सिंह 1/18 भाग मोहिंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र लाल सिंह 1/18 भाग हरभगवान सिंह पुत्र गुरजंत सिंह पुत्र करतार सिंह 1/1656 सिमरनजीत कौर पत्नी हरचरण सिंह का पुत्र 89/1104 सीमा पत्नी स्वर्ण सिंह 89/1104 हिस्सा हरचरण सिंह पुत्र वैशाख सिंह पुत्र हजूर सिंह 269/3312 स्वर्ण सिंह पुत्र वैशाख सिंह पुत्र हजूर सिंह 269/3312 सरबजीत कौर पत्नी अमरजीत सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह 1/6 भाग

					(25//13 )
9	25//14	निजी	नहरी	0.0455274	गुरदित्त सिंह और गुरमेल सिंह पुत्र दर्शन सिंह 29/118, परमिंदर कौर पत्नी जसवंत सिंह 1/2, अमनदीप सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह 15/59 (5-18) नछत्तर सिंह और जीत सिंह जरनैल सिंह (0-9) (25//14 )
10	25//15	निजी	नहरी	0.0404688	चरणजीत सिंह और जसपाल सिंह पुत्रअवतार सिंह 1138/1324, अमरजीत कौर पत्नी अवतार सिंह 93/662 (25//15 )
11	25//19	निजी	नहरी	0.0607032	गुरदित्ता सिंह और गुरमेल सिंह पुत्र दर्शन सिंह 752/3425, गुरशेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह 1333/3425, हरप्रीत सिंह पुत्र गुरदित्ता सिंह और गुरमेल सिंह 32/137 परमिंदर कौर पत्नी जसवंत सिंह 108/685 (25//19 )
12	25//20	निजी	नहरी	0.0480567	गुरदित्ता सिंह और गुरमेल सिंह पुत्र दर्शन सिंह 752/3425, गुरशेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह 1333/3425, हरप्रीत सिंह पुत्र गुरदित्ता सिंह और गुरमेल सिंह 32/137 परमिंदर कौर पत्नी जसवंत सिंह 108/685 (25//20 )
13	26//16	निजी	नहरी	0.0429981	दलजीत सिंह 333/1487, गुरमीत सिंह 1051/2974 पुत्र बोघ सिंह, बोघ सिंह पुत्र मेहर सिंह 1257- 2974 (26//16 )
14	26//17	निजी	नहरी	0.0379395	दलजीत सिंह 333/1487, गुरमीत सिंह 1051/2974 पुत्र बोघ सिंह, बोघ सिंह पुत्र मेहर सिंह 1257- 2974 (26//17 )

15	26//21	निजी	नहरी	0.0278223	जसपाल सिंह पुत्र जीत सिंह 1/23, मनजिंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह 7/184, दलजीत सिंह 9/23, गुरमीत सिंह 97/184 पुत्र बोघ सिंह (26//21 )
16	26//22/1	निजी	नहरी	0.0075879	जसपाल सिंह पुत्र जीत सिंह 1/23, मनजिंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह 7/184, दलजीत सिंह 9/23, गुरमीत सिंह 97/184 पुत्र बोघ सिंह (26//22/1 )
17	26//22/2	निजी	नहरी	0.0202344	चरणजीत सिंह और जसपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह बराबर भाग (26//22/2 )
18	26//23/1	निजी(जुमला मालकान )	नहरी	0.0328809	जुमला मुस्तका मालकान (2-6), दलजीत सिंह पुत्र बोघ सिंह (0-8) (26//23/1 )
19	26//23/2	निजी	नहरी	0.0025293	दलजीत सिंह 333/1487, गुरमीत सिंह 1051/2974 पुत्र बोघ सिंह, बोघ सिंह पुत्र मेहर सिंह 1257-2974 (26//23/2 )
20	27//25	निजी	नहरी	0.0025293	जसपाल सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र अमर सिंह 144/407 मनजिंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र जीत सिंह 131/407 गुरमीत सिंह पुत्र बोध सिंह पुत्र मेहर सिंह 83/814 भाग दलजीत सिंह पुत्र बोध सिंह पुत्र मेहर सिंह 83/814 भाग चरणजीत सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र मेहर सिंह 49/814 जसपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र मेहर सिंह 49/814 (4-7) अनंतिम सरकार (0-13) ख न-27/25 (27//25 )
21	35//23/1	निजी	गैर मुमकिन+नहरी	0.0227637	निहाल सिंह पुत्र आत्म सिंह (35//23/1 )
22	35//24	निजी	नहरी	0.0101172	गुलो पुत्री करनैल सिंह पुत्र भाग सिंह, जस कौर बेटी करनैल सिंह पुत्र भाग

				<p>सिंह, गुडी पत्नी करनैल सिंह पुत्र भाग सिंह 407/3701, अंगराज कौर विधवा जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 31/3701 भाग, परमजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 31/3701, सुखजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 31/3701, बलजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 31/3701, बलदेव कौर विधवा सुखदेव सिंह के पुत्र, करनाल सिंह 39/3701 इकबाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह 172/11103 भाग, गुरलाभ सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह 172/11103 भाग सुखदेव कौर पत्नी सुखदेव सिंह पत्न करनैल सिंह, 67/11103भाग, बलदेव सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र भाग सिंह 288/3701 बलदेव कौर पुत्री बिकार सिंह पुत्र गुरपाल सिंह, 667/3701 भाग कमलेश रानी विधवा दुर्गा दास पुत्र जगन नाथ 64/3701 भाग, ओकार सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र आत्म सिंह, 24/3701भाग अवतार सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र आत्म सिंह 24/3701 भाग, गुरमीत सिंह पुत्र महाकम सिंह पुत्र जरनैल सिंह 647/7402 भाग मलकीत सिंह पुत्र महकम सिंह पुत्र जरनैल सिंह भाग 647/7402 भाग, अमृतपाल सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 25/3701 समित बंसल पुत्र रमेश कुमार पुत्र शिवाजी राम 58/3701 भाग, संजीव कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र रोशन लाल 61/3701 भाग, प्रेम कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र रोशन लाल 67/3701 भाग, बलजिंदर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र शेर सिंह 10/3701 भाग, रणधीर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र शेर सिंह 10/3701</p>
--	--	--	--	--

					भाग, सुखराज कौर उर्फ राज कौर पत्नी गुरचरण सिंह पुत्र जसवंत सिंह 80/3701 भाग, बलजीत कौर उर्फ जीत कौर पत्नी बलकार सिंह पुत्र जसवंत सिंह 80/3701 भाग, गुरदेव कौर विधवा महिकम सिंह पुत्र जरनैल सिंह भाग 290/3701 भाग, बलजीत कौर की पत्नी अमृतपाल सिंह के बेटे जंगीर सिंह की 140/3701 की हिस्सेदारी है, अमित बंसल पुत्र रमेश कुमार पुत्र शिवाजी राम 58/3701 भाग, डिप्टी सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र भाग सिंह 128/3701 भाग परवीर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र भाग सिंह 128/3701 भाग, मेजर सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र भाग सिंह 127/3701, गुरप्रीत कौर की पत्नी मलकीत सिंह पत्न महिकम सिंह 9/3701 भाग, सुखप्रीत कौर की पत्नी गुरमीत सिंह पत्न महिकम सिंह 9/3701 ख नं- 35 // 24 (6-10) 25 (5-14) आशावी कुमार s / o दुर्गा दास, कामलेश रानी विधवा दुर्गा दास ख न- 35/25 (1-13) , (35//24 )
23	35//25	निजी	नहरी	0.0151758	गुलो पुत्री करनैल सिंह पुत्र भाग सिंह, जस कौर बेटी करनैल सिंह पुत्र भाग सिंह, गुडी पत्नी करनैल सिंह पुत्र भाग सिंह 407/3701, अंगराज कौर विधवा जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 31/3701 भाग, परमजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 31/3701, सुखजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 31/3701, बलजीत कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 31/3701, बलदेव कौर विधवा सुखदेव सिंह के पुत्र, करनाल सिंह 39/3701 इकबाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह

				<p>172/11103 भाग, गुरलाभ सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह</p> <p>172/11103 भाग सुखदेव कौर पत्नी सुखदेव सिंह पत्न करनैल सिंह,</p> <p>67/11103भाग, बलदेव सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र भाग सिंह 288/3701 बलदेव कौर पुत्री बिकार सिंह पुत्र गुरपाल सिंह, 667/3701 भाग कमलेश रानी विधवा दुर्गा दास पुत्र जगन नाथ 64/3701 भाग, ओकार सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र आत्म सिंह, 24/3701भाग अवतार सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र आत्म सिंह 24/3701 भाग, गुरमीत सिंह पुत्र महाकम सिंह पुत्र जरनैल सिंह 647/7402 भाग मलकीत सिंह पुत्र महकम सिंह पुत्र जरनैल सिंह भाग 647/7402 भाग, अमृतपाल सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र करनैल सिंह 25/3701 समित बंसल पुत्र रमेश कुमार पुत्र शिवाजी राम 58/3701 भाग, संजीव कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र रोशन लाल 61/3701 भाग, प्रेम कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र रोशन लाल 67/3701 भाग, बलजिंदर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र शेर सिंह 10/3701 भाग, रणधीर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह पुत्र शेर सिंह 10/3701 भाग, सुखराज कौर उर्फ राज कौर पत्नी गुरचरण सिंह पुत्र जसवंत सिंह 80/3701 भाग, बलजीत कौर उर्फ जीत कौर पत्नी बलकार सिंह पुत्र जसवंत सिंह 80/3701 भाग, गुरदेव कौर विधवा महिकम सिंह पुत्र जरनैल सिंह भाग 290/3701 भाग, बलजीत कौर की पत्नी अमृतपाल सिंह के बेटे जंगीर सिंह की 140/3701 की हिस्सेदारी है, अमित बंसल पुत्र रमेश कुमार पुत्र शिवाजी राम 58/3701 भाग, डिप्टी सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र</p>
--	--	--	--	---

					भाग सिंह 128/3701 भाग परवीर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र भाग सिंह 128/3701 भाग, मेजर सिंह पुत्र रूप सिंह पुत्र भाग सिंह 127/3701, गुरप्रीत कौर की पत्नी मलकीत सिंह पत्न महिकम सिंह 9/3701 भाग, सुखप्रीत कौर की पत्नी गुरमीत सिंह पत्न महिकम सिंह 9/3701 ख नं- 35 // 24 (6-10) 25 (5-14) आशावी कुमार s / o दुर्गा दास, कामलेश रानी विधवा दुर्गा दास ख न- 35/25 (1-13) , (35//25 )
24	39//11 Min	निजी	नहरी	0.0101172	अमरजीत कौर पत्नी बलजेट सिंह 15/67, गुरशरण कौर पत्नी गुरचरण सिंह 80/469, हरजीत कौर पत्नी हरदीप सिंह 142/469, अमानत कौर पत्नी संदीप सिंह 142/469 (39 //11 )
25	39//12	निजी	नहरी	0.0126465	सुखदेव सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 1/5 भाग बलजीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र महिंगा सिंह 23/60 भाग सुखजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र बख्तावर सिंह, 41/330 भाग परमिंदर कौर पत्नी बलजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 1/66 भाग रूपिंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह पुत्र महिंदा सिंह 101/1320 भाग हरमनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह का बेटा महिंगा सिंह 53/792 भाग राशनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह पुत्र महिंदा सिंह 53/792 भाग मनवीर सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 53/792 ख नं -39 // 12 / (8-7) 13/1 (3-18), सुखदीप सिंघ पुत्र करतार सिंह 138/953, गुरमेल स इं जी गेन SIngh 173/953, परमजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह 30/953, सुखपाल कौर विधवा

					132/953, बलकरन Singh 312/953 पुत्र जसवीर सिंह, गुरदीप सिंह पुत्र कुलवंत सिंह 138/953, रजनी बाला पत्नी राकेश कुमार 30/953 ख न- 39 // 12 (0-9) (39//12 )
26	39//13/1 Min	निजी	नहरी	0.0050586	सुखदेव सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 1/5 भाग बलजीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र महिंगा सिंह 23/60 भाग, सुखजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र बख्तावर सिंह, 41/330 भाग, परमिंदर कौर पत्नी बलजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 1/66 भाग, रूपिंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह पुत्र महिंदा सिंह 101/1320 भाग, हरमनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह का बेटा महिंगा सिंह 53/792 भाग राशनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह पुत्र महिंदा सिंह 53/792 भाग, मनवीर सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 53/792 ख नं -39 // 12 / (8-7) 13/1 (3-18), सुखदीप सिंघ पुत्र करतार सिंह 138/953, गुरमेल स इं जी गेन Singh 173/953, परमजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह 30/953, सुखपाल कौर विधवा 132/953, बलकरन Singh 312/953 पुत्र जसवीर सिंह, गुरदीप सिंह पुत्र कुलवंत सिंह 138/953, रजनी बाला पत्नी राकेश कुमार 30/953 ख न- 39 // 12 (0-9) (39//13/1 )
27	39//13/2 Min	निजी	नहरी	0.0075879	रूपिंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403 हरमनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403 बलजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 262/801 सुखदेव सिंह पुत्र बख्तावर

					सिंह पुत्र केहर सिंह 815/2403 भाग सुखजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र, बख्तावर सिंह 251/2403 सुचि कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 1/2403 भाग बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र मतब सिंह 1/2403 महिंगा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 13/2403 रशदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403 मनवीर सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403 (39//13/2 )
28	39//14	निजी	नहरी	0.0227637	रूपिंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403, हरमनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403, बलजीत सिंह पुत्र महेंगा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 262/801, सुखदेव सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 815/2403 भाग, सुखजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र, बख्तावर सिंह 251/2403, सुचि कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 1/2403 भाग बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र मतब सिंह 1/2403, महिंगा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 13/2403, रशनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403, मनवीर सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403 (39//14 )
29	39//15	निजी	नहरी	0.0278223	रूपिंदर कौर विधवा गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403, हरमनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403, बलजीत सिंह पुत्र महेंगा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 262/801, सुखदेव सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 815/2403 भाग, सुखजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र,

					बख्तावर सिंह 251/2403, सुचि कौर पत्नी बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 1/2403 भाग बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र मतब सिंह 1/2403, महिंगा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह पुत्र केहर सिंह 13/2403, रशनदीप कौर पुत्री गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403, मनवीर सिंह पुत्र गुरजीत सिंह पुत्र महिंगा सिंह 134/2403 (39//15 )
30	40//11	निजी	नहरी	0.0227637	पमिंदर कौर पत्नी बलजीत सिंह 11/192, मेहर सिंह पुत्र परसराम 5/24, सुखविंदर कौर पत्नी करनैल सिंह 41/192, बलबीर कौर पत्नी थाना सिंह 25/96, सुखविंदर कौर पत्नी गुरदीप सिंह 25/96 (40//11 )
31	40//12	निजी	नहरी	0.0379395	मलकीत सिंह पुत्र गोपाल सिंह 1/10, गुरदेव कौर विधवा और महिंदर कौर जोगिंदर कौर जसवीर कौर पुत्री गुरदेव सिंह 4/50, हाकम सिंह पुत्र गुदेव सिंह 17/100, भोगा सिंह और टहल सिंह पुत्र भंगा सिंह 6/80, जसविंदर सिंह पुत्र लब सिंह 1/6, मुखबैन सिंह पुत्र कुलवंत सिंह 1/6, रेहम सिंह पुत्र जसवंत सिंह 1/6, मनमीत सिंघ पुत्र टहल सिंह ३3/80, जगमीत सिंह पुत्र भोगा सिंह 3/80- (40//12 )
32	40//13	निजी	नहरी	0.0404688	मलकीत सिंह पुत्र गोपाल सिंह 1/10, गुरदेव कौर विधवा और महिंदर कौर जोगिंदर कौर जसवीर कौर पुत्री गुरदेव सिंह 4/50, हाकम सिंह पुत्र गुदेव सिंह 17/100, भोगा सिंह और टहल सिंह पुत्र भंगा सिंह 6/80, जसविंदर सिंह पुत्र लब सिंह 1/6, मुखबैन सिंह पुत्र कुलवंत सिंह 1/6,

					रेहम सिंह पुत्र जसवंत सिंह 1/6, मनमीत सिंह पुत्र टहल सिंह ३३/८०, जगमीत सिंह पुत्र भोगा सिंह ३/८०- (४०//१३ )
33	40//14/1	निजी	नहरी	0.0126465	मलकीत सिंह पुत्र गोपाल सिंह 1/10, गुरदेव कौर विधवा और महिंदर कौर जोगिंदर कौर जसवीर कौर पुत्री गुरदेव सिंह 4/50, हाकम सिंह पुत्र गुदेव सिंह 17/100, भोगा सिंह और टहल सिंह पुत्र भंगा सिंह 6/80, जसविंदर सिंह पुत्र लब सिंह 1/6, मुखबैन सिंह पुत्र कुलवंत सिंह 1/6, रेहम सिंह पुत्र जसवंत सिंह 1/6, मनमीत सिंह पुत्र टहल सिंह ३३/८०, जगमीत सिंह पुत्र भोगा सिंह ३/८०- (४०//१४/१ )
34	40//14/2	निजी	नहरी	0.0101172	आरती पत्नी अभिषेक 19/60, सिमी पत्नी संजय 19/60, सुनीता रानी पत्नी सुरिंदर कुमार 19/60, शिवानी वाधवा पत्नी राजेश कुमार 1/20 (४०//१४/२ )
35	42//2	निजी	नहरी	0.0101172	अश्वनी कुमार पुत्र दुर्गा दास (४२//२ )
36	42//3	निजी	नहरी	0.0151758	अश्वनी कुमार पुत्र दुर्गा दास (४२//३ )
37	42//4/1	निजी	नहरी	0.0025293	अल्पकालीन सरकार (४२//४/१)
38	42//4/2	निजी	नहरी	0.0101172	अश्वनी कुमार पुत्र दुर्गा दास (४२//४/२)
39	42//5	अन्य	गैर मुमकिन+नहरी	0.0177051	जसपाल सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र अमर सिंह 144/407 मनजिंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र जीत सिंह 131/407 गुरमीत सिंह पुत्र बोध सिंह पुत्र मेहर सिंह 83/814 भाग दलजीत सिंह पुत्र बोध सिंह पुत्र मेहर सिंह 83/814 भाग चरणजीत सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र मेहर सिंह 49/814

					जसपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र मेहर सिंह 49/814 (4-7) अनंतिम सरकार (0-13) (42//5)
40	Canal	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0025293	अल्पकालीन सरकार (कैनाल )
41	Canal	सरकारी	नहरी	0.0050586	अल्पकालीन सरकार (कैनाल )
42	Canal	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0025293	अल्पकालीन सरकार (कैनाल )
43	Canal	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0025293	अल्पकालीन सरकार (कैनाल )
44	Canal	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0025293	अल्पकालीन सरकार (कैनाल )
45	Rasta	सरकारी(रास्ता )	नहरी	0.0025293	ग्राम पंचायत (रास्ता )
46	Rasta	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत (रास्ता )
47	Rasta	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0050586	ग्राम पंचायत (रास्ता )
	गांव का नाम: हुसनार (17)				
48	190//10	सरकारी(पंचायत )	नहरी	0.0050586	ग्राम पंचायत (190//8 )
49	190//8	सरकारी(पंचायत )	नहरी	0.0227637	ग्राम पंचायत ( 190//8)
50	190//9	सरकारी(पंचायत )	नहरी	0.0177051	ग्राम पंचायत ( 190 //9)
51	191//10	निजी	नहरी	0.0227637	कुलवीर सिंह पुत्र नछत्तर सिंह 1/2, हाकम सिंह पुत्र बख्तौर सिंह 545/2406 नवजोत कौर पत्नी हाकम सिंह 658/2406 (4-14), हरचेत सिंह 797/4138, गुरमीत सिंह 797/4138 पुत्र नंद सिंह, हीरा सिंह पुत्र गुरमीत सिंह 636/2069, परगट सिंह, सुखविंदर सिंह पुत्र हरचेत सिंह

					636/2069 कुल (4-13) (191//10 )
52	191//6/1	निजी	नहरी	0.0177051	साधु सिंह मेजर सिंह मंदिर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/6, सुखदेव सिंह बलदेव सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/3, माखन सिंह मिड्डा सिंह पुत्र किशन सिंह 1/3, गुरचरण सिंह पुत्र मुख्तार सिंह 1/6 ( 191//6/1 )
53	191//7/1	निजी	नहरी	0.0177051	साधु सिंह मेजर सिंह मंदिर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/6, सुखदेव सिंह बलदेव सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/3, माखन सिंह मिड्डा सिंह पुत्र किशन सिंह 1/3, गुरचरण सिंह पुत्र मुख्तार सिंह 1/6 (191//7/1 )
54	191//8	निजी	नहरी	0.0202344	कुलवीर सिंह पुत्र नछत्तर सिंह 1/2, हाकम सिंह पुत्र बख्तौर सिंह 545/2406 नवजोत कौर पत्नी हाकम सिंह 658/2406 (191 //8)
55	191//9	निजी	नहरी	0.0227637	कुलवीर सिंह पुत्र नछत्तर सिंह 1/2, हाकम सिंह पुत्र बख्तौर सिंह 545/2406 नवजोत कौर पत्नी हाकम सिंह 658/2406 (191//9 )
56	192//1	निजी	नहरी	0.0101172	साधु सिंह मेजर सिंह मंदिर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 1/6, सुखदेव सिंह बलदेव सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह 1/3, माखन सिंह मिड्डा सिंह पुत्र किशन सिंह 1/3, गुरचरण सिंह पुत्र मुख्तार सिंह 1/6 (0-2), स्वीटी गोयल पुत्र राम कुमार 3/10, हनी कुमार पुत्र भूपिंदर कुमार, 1/10, नीरज सिंगला पुत्र सुभाष चंदर 3/10, विक्रम जीत पुत्र दर्शन पाल 3/10 (2-14) (192//1 )
57	986	निजी	नहरी	0.3642192	शाम लट पट्टी थूला कौला

					(986 )
58	995	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत (995)
59	Canal	सरकारी	गैर मुमकिन	0.2428128	अल्पकालीन सरकार (कैनाल )
गांव का नाम: थेरी (19)					
60	104//10	निजी	नहरी	0.0455274	जीत इंद्र सिंह पुत्र नरिंदर सिंह, हरविंदर सिंह (104//10 )
61	104//6	निजी	नहरी	0.0101172	मंजू सिद्धू विधवा, सिमरन सिद्धू पुत्री और हरजोरवर सिंह पुत्र भलिंदर सिंह (3-0), राजकर्णी पत्नी मोहन सिंह (3-0) (104//6 )
62	104//7	निजी	नहरी	0.0101172	मंजू सिद्धू विधवा, सिमरन सिद्धू पुत्री और हरजोरवर सिंह पुत्र भलिंदर सिंह (104//7 )
63	104//8	निजी	नहरी	0.0151758	मंजू सिद्धू विधवा, सिमरन सिद्धू पुत्री और हरजोरवर सिंह पुत्र भलिंदर सिंह (104//8 )
64	104//9	निजी	नहरी	0.025293	मंजू सिद्धू विधवा, सिमरन सिद्धू पुत्री और हरजोरवर सिंह पुत्र भलिंदर सिंह (104 //9)
65	105//10	निजी	गैर मुमकिन	0.0429981	जीत इंद्र सिंह पुत्र नरिंदर सिंह, हरविंदर सिंह (105//10 )
66	105//6	निजी	नहरी	0.0556446	जीत इंद्र सिंह पुत्र नरिंदर सिंह, हरविंदर सिंह (105//6 )
67	105//7	निजी	नहरी	0.0556446	जीत इंद्र सिंह पुत्र नरिंदर सिंह, हरविंदर सिंह (105//7 )
68	105//8	निजी	नहरी	0.0328809	जीत इंद्र सिंह पुत्र नरिंदर सिंह,

					हरविंदर सिंह (105//8 )
69	105//9	निजी	नहरी	0.0328809	जीत इंद्र सिंह पुत्र नरिंदर सिंह, हरविंदर सिंह (105//9 )
70	106//10	निजी	नहरी	0.0455274	बलदेव सिंह सुखदेव सिंह पुत्र माल सिंह 1/2, अमरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह 1/2, (106//10 )
71	106//8	निजी	नहरी	0.0151758	पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (106//8 )
72	106//9	निजी	नहरी	0.0404688	बलदेव सिंह सुखदेव सिंह पुत्र माल सिंह 1/2, अमरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह 1/2, (106//9 )
73	107//10	निजी	नहरी	0.0455274	महिंदर कौर विधवा, हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1248/2172, गुरदेव सिंह जगदेव सिंह 352/2172, बलदेव सिंह 396/2172 पुत्र माल सिंह, जगसीर सिंह लाखवीर सिंह सुखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह 176/2172 (107//10 )
74	107//6	निजी	नहरी	0.050586	बलदेव सिंह सुखदेव सिंह पुत्र माल सिंह 1/2, अमरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह 1/2, (107//6 )
75	107//7	निजी	नहरी	0.0556446	बलदेव सिंह सुखदेव सिंह पुत्र माल सिंह 1/2, अमरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह 1/2, (107//7 )
76	107//8	निजी	नहरी	0.050586	महिंदर कौर विधवा, हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1248/2172, गुरदेव सिंह जगदेव सिंह 352/2172, बलदेव सिंह 396/2172 पुत्र माल सिंह, जगसीर सिंह लाखवीर सिंह सुखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह 176/2172

					(107//8 )
77	107//9	निजी	नहरी	0.0455274	महिंदर कौर विधवा, हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1248/2172, गुरदेव सिंह जगदेव सिंह 352/2172, बलदेव सिंह 396/2172 पुत्र माल सिंह, जगसीर सिंह लाखवीर सिंह सुखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह 176/2172 (107//9 )
78	108//10	निजी	नहरी	0.025293	सत्य कौर पुत्री माल सिंह पुत्र अर्जन सिंह 34/1093 बलदेव सिंह पुत्र माल सिंह पुत्र अर्जन सिंह 66/1093 भाग जगदेव सिंह पुत्र माल सिंह पुत्र अर्जन सिंह 66/1093 भाग गुरदेव सिंह पुत्र माल सिंह पुत्र अर्जन सिंह 315/2186 दिलबर सिंह पुत्र बावा सिंह पुत्र दुला सिंह 410/3279 इकबाल सिंह पुत्र बावा सिंह पुत्र दुला सिंह 410/3279 नेक सिंह पुत्र बावा सिंह पुत्र दुला सिंह 410/3279 प्रेम सिंह पुत्र राजिंदर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 68/1093 दिलसर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह 68/1093 भाग जगसीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह पुत्र माल सिंह 105/2186 सुखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह पुत्र माल सिंह 105/2186 लखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह पुत्र माल सिंह 105/2186 महिंदर कौर विधवा और हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 66/1093 (108//10 )
79	108//6	निजी	नहरी	0.0455274	महिंदर कौर विधवा, हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1248/2172, गुरदेव सिंह जगदेव सिंह 352/2172, बलदेव सिंह 396/2172 पुत्र माल सिंह, जगसीर सिंह लाखवीर सिंह सुखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह 176/2172 (108//6)
80	108//7	निजी	नहरी	0.0455274	महिंदर कौर विधवा, हरजीत सिंह पुत्र

					सुखदेव सिंह 1248/2172, गुरदेव सिंह जगदेव सिंह 352/2172, बलदेव सिंह 396/2172 पुत्र माल सिंह, जगसीर सिंह लाखवीर सिंह सुखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह 176/2172 (108//7 )
81	108//8	निजी	नहरी	0.0455274	महिंदर कौर विधवा, हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1248/2172, गुरदेव सिंह जगदेव सिंह 352/2172, बलदेव सिंह 396/2172 पुत्र माल सिंह, जगसीर सिंह लाखवीर सिंह सुखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह 176/2172 (108//8 )
82	108//9	निजी	नहरी	0.0404688	महिंदर कौर विधवा, हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1248/2172, गुरदेव सिंह जगदेव सिंह 352/2172, बलदेव सिंह 396/2172 पुत्र माल सिंह, जगसीर सिंह लाखवीर सिंह सुखवीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह 176/2172 (108//9 )
83	109//10	निजी	नहरी	0.0278223	कुलविंदर सिंह पुत्र बलकार सिंह 1/2, भूपिंदर सिंह पुत्र नचट्टर सिंह 1893/4214 हरजिंदर सिंह रणजिंदर सिंह पुत्र हरपाल सिंह 214/4214 ख NO- 109/8 (0-4) ख no- 10 (0-6), राजिंदर पाल सिंह बलकार सिंह पुत्र शाम सिंह 109/8 (3-12) ख नं - 10 (3-14) (109//10 )
84	109//6	निजी	नहरी	0.0227637	सत्य कौर पुत्री माल सिंह पुत्र अर्जन सिंह 34/1093 बलदेव सिंह पुत्र माल सिंह पुत्र अर्जन सिंह 66/1093 भाग जगदेव सिंह पुत्र माल सिंह पुत्र अर्जन सिंह 66/1093 भाग गुरदेव सिंह पुत्र माल सिंह पुत्र अर्जन सिंह 315/2186 दिलबर सिंह पुत्र बावा सिंह पुत्र दुला सिंह 410/3279 इकबाल सिंह पुत्र

					बाबा सिंह पुत्र दुला सिंह 410/3279 नेक सिंह पुत्र बाबा सिंह पुत्र दुला सिंह 410/3279 प्रेम सिंह पुत्र राजिंदर सिंह पुत्र जरनैल सिंह 68/1093 दिलसर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह 68/1093 भाग जगसीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह पुत्र माल सिंह 105/2186 सुखबीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह पुत्र माल सिंह 105/2186 लखबीर सिंह पुत्र बिंदर सिंह पुत्र माल सिंह 105/2186 महिंदर कौर विधवा और हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 66/1093 (109//6 )
85	109//7	निजी	नहरी	0.0227637	गुरप्रीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह (109//7 )
86	109//8	निजी	नहरी	0.0227637	कुलविंदर सिंह पुत्र बलकार सिंह 1/2, भूपिंदर सिंह पुत्र नचट्टर सिंह 1893/4214 हरजिंदर सिंह रणजिंदर सिंह पुत्र हरपाल सिंह 214/4214 ख NO- 109/8 (0-4) ख no- 10 (0- 6), राजिंदर पाल सिंह बलकार सिंह पुत्र शाम सिंह 109/8 (3-12) ख नं - 10 (3-14) (109//8 )
87	109//9	निजी	नहरी	0.0177051	राजिंदर पाल सिंह बलकार सिंह पुत्र शाम सिंह (109//9 )
88	110//6	निजी	नहरी	0.0328809	कुलविंदर सिंह पुत्र बलकार सिंह 1/2, भूपिंदर सिंह पुत्र नचट्टर सिंह 1893/4214 हरजिंदर सिंह रणजिंदर सिंह पुत्र हरपाल सिंह 214/4214 ख NO- 109/8 (0-4) ख no- 10 (0- 6), राजिंदर पाल सिंह बलकार सिंह पुत्र शाम सिंह 109/8 (3-12) ख नं - 10 (3-14) (110//6 )
89	110//7/1	निजी	नहरी	0.0050586	बलविंदर कौर विधवा और गुरलाल

					सिंह पुत्र रशपाल सिंह समान भाग (110//7/1 )
90	110//7/2	निजी	नहरी	0.0126465	परमदीप सिंह पुत्र लखविंदर सिंह (1-5) बलविंदर कौर विधवा गुरलाल सिंह पुत्र रशपाल सिंह (1-13) (110//7/2 )
91	110//8	निजी	नहरी	0.0101172	परमदीप सिंह पुत्र लखविंदर सिंह (110//8 )
92	112//1	निजी	नहरी	0.0177051	अजायब सिंह शिवराज सिंह पुत्र संतोख सिंह (112//1 )
93	112//2	निजी	नहरी	0.0177051	अजायब सिंह शिवराज सिंह पुत्र संतोख सिंह (112//2 )
94	112//3/1	निजी	नहरी	0.0025293	अजायब सिंह शिवराज सिंह पुत्र संतोख सिंह (112//3/1 )
95	113//1	निजी	नहरी	0.0278223	गुरविंदर सिंह 5 भाग, लखविंदर सिंह 160 भाग पुत्र अजब सिंह, राजदीप सिंह पुत्र गुरविंदर सिंह 155 भाग (113//1 )
96	113//2	निजी	नहरी	0.0328809	गुरविंदर सिंह 5 भाग, लखविंदर सिंह 160 भाग पुत्र अजब सिंह, राजदीप सिंह पुत्र गुरविंदर सिंह 155 भाग (3-0), चरणजीत कौर पत्नी निर्मल सिंह 2/3, हमिंदर कौर पत्नी हरबंस सिंह 1/3 (7-4) (113 //2 )
97	113//3	निजी	नहरी	0.0278223	जसप्रीत सिंह, दिलदीप सिंह पुत्र रशपाल सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह और रशपाल सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह (समान) (113//3)
98	113//4	निजी	नहरी	0.0227637	मनजीत सिंह और गुरदीप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह (समान भाग) (113//4 )
99	113//5	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0151758	अल्पकालीन सरकार (2-7), परमजीत

					सिंह पुत्र इंद्र सिंह (6-17) कुल क्षेत्र (9-4) (113//5 )
100	114//10	निजी	नहरी	0.0101172	गुरविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह (114//10 )
101	114//6/1	निजी	नहरी	0.0025293	गुरविंदर सिंह 5 भाग, लखविंदर सिंह 160 भाग पुत्र अजब सिंह, राजदीप सिंह पुत्र गुरविंदर सिंह 155 भाग (114//6/1 )
102	114//6/2	निजी	नहरी	0.0177051	लखविंदर सिंह पुत्र अजायब सिंह 121/298, राजदीप सिंह पुत्र गुरविंदर सिंह 121/1298, निर्मल सिंह पुत्र तेजा सिंह 28/149 (114//6/2)
103	114//7	निजी	नहरी	0.0227637	लखविंदर सिंह पुत्र अजायब सिंह 121/298, राजदीप सिंह पुत्र गुरविंदर सिंह 121/1298, निर्मल सिंह पुत्र तेजा सिंह 28/149 (1-19), सुखदेव सिंह पुत्र ईशर सिंह (1-2) (114//7 )
104	114//8	निजी	नहरी	0.0151758	गुरविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह (114//8 )
105	114//9	निजी	नहरी	0.0126465	गुरविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह (114//9 )
106	115//10	निजी	नहरी	0.0278223	गुरतेज सिंह पुत्र बागा सिंह (115//10 )
107	115//6	निजी	नहरी	0.0227637	गुरविंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह (3-15), दिलप्रीत कौर पत्नी बलजीत सिंह (0-7) (115//6 )
108	115//7	निजी	नहरी	0.0328809	दिलप्रीत कौर पत्नी बलजीत सिंह (4-4), हरमंदिर सिंह पुत्र बलवंत सिंह (0-7) (115//7 )
109	115//8	निजी	नहरी	0.0328809	हरमंदिर सिंह पुत्र बलवंत सिंह

					(115//8 )
110	115//9	निजी	नहरी	0.0278223	मनजीत कौर 634/1999 पत्नी ,अमनदीप सिंह पुत्र 975/1999, रमनदीप कौर और नवदीप कौर पुत्री हरमिंदर सिंह 390/1999 (115//9 )
111	116//10	निजी	नहरी	0.0328809	परमजीत कौर विधवा 111/362 परवीन पाल सिंह 251/362 पुत्र पिरथी सिंह (116//10 )
112	116//6	निजी	नहरी	0.0278223	बलदेव सिंह, गुरतेज सिंह पुत्र बागा सिंह (समान भाग) (116//6 )
113	116//7	निजी	नहरी	0.0227637	बलदेव सिंह, गुरतेज सिंह पुत्र बागा सिंह (समान भाग) (116//7 )
114	116//8	निजी	नहरी	0.0278223	बलदेव सिंह, गुरतेज सिंह पुत्र बागा सिंह (2-1) (समान शेयर), युवराज कुमार पुत्र लाभ चंद 1/4, निलम रानी पत्नी और गगनदीप सिंह पुत्र महार सिंह 1/2, गेन चंद पुत्र बख्तावर सिंह 1/4 (3-19) (116//8 )
115	116//9	निजी	नहरी	0.0328809	परमजीत कौर विधवा 111/362 परवीन पाल सिंह 251/362 पुत्र पिरथी सिंह (116 //9)
116	117//10	निजी	नहरी	0.0404688	बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र महाना सिंह 368/2073 महीन सिंह पुत्र छितिन कौर पुत्री महान सिंह 158/2073 सुरजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह 65/2073 जगदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह 11/2073 भाग दिलबाग सिंह पुत्र धीर सिंह पुत्र भाना सिंह 77/4146 जसपाल सिंह पुत्र प्रीतम

					<p>सिंह पुत्र भाना सिंह 215/2073 भाग  गुरमेल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र भाना  सिंह 215/2073 भाग राजविंदर सिंह  पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र मेहर सिंह  535/4146 शिव शक्ति शिक्षा खंड  गिदबाहा 7/2073 सुरेन्द्र पाल सिंह  पुत्र जगदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह  1/4146 अमरपाल सिंह पुत्र हरजीत  सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1/4146  नरिंदर कौर पुत्री जोगिंदर सिंह पुत्र  मैहर सिंह भाग 163/2073 बलजिंदर  कौर पुत्री जोगिंदर सिंह पुत्र मेहर सिंह  163/2073 भाग परमजीत कौर  विधवा पिरथी पाल सिंह पुत्र जोगिंदर  सिंह 65/4146 भाग भूपिंदर कौर  पुत्री पिथी पाल सिंह पुत्र जोगिंदर  सिंह 19/1382 सरूपिंदर कौर पुत्री  पिथी पाल सिंह का बेटा जोगिंदर सिंह  19/1382 हरिंदरपाल सिंह पुत्र पिथी  पाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह भाग  21/691 परवीनपाल सिंह पुत्र पिथी  पाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 21/691  बीरविंदर सिंह पुत्र राजविंदर सिंह  पुत्र जोगिंदर सिंह 35/1382 भाग  एडवर्ड गंज पब्लिक वेलफेयर  एसोसिएशन एसोसिएट रजिस्ट्रार  मलोट मुक्तसर साहिब 91/2073  भाग अमरजीत कौर पत्नी गुरदयाल  सिंह पुत्र उजगार सिंह 14/691  (117//10 )</p>
117	117//6	निजी	नहरी	0.0303516	<p>परमजीत कौर विधवा 111/362  परवीन पाल सिंह 251/362 पुत्र  पिरथी सिंह  (117//6 )</p>
118	117//7	निजी	नहरी	0.0328809	<p>सुखजीत कौर पत्नी 128/1885 ,  दिलबाग सिंह 367/1885 पुत्र धीर  सिंह, बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह  943/1885, जसपाल सिंह  102/1885, गुरमेल सिंह 111/1885</p>

					पुत्र प्रीतम सिंह, जगदीप सिंह 77/1885 पुत्र और सुरजीत कौर 157 / 1885 पुत्री सुखदेव सिंह (117//7 )
119	117//8	निजी	नहरी	0.0278223	सुखजीत कौर पत्नी 128/1885 , दिलबाग सिंह 367/1885 पुत्र धीर सिंह, बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह 943/1885, जसपाल सिंह 102/1885, गुरमेल सिंह 111/1885 पुत्र प्रीतम सिंह, जगदीप सिंह 77/1885 पुत्र और सुरजीत कौर 157 / 1885 पुत्री सुखदेव सिंह (117//8 )
120	117//9/1	निजी	नहरी	0.0151758	सुखजीत कौर पत्नी 128/1885 , दिलबाग सिंह 367/1885 पुत्र धीर सिंह, बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह 943/1885, जसपाल सिंह 102/1885, गुरमेल सिंह 111/1885 पुत्र प्रीतम सिंह, जगदीप सिंह 77/1885 पुत्र और सुरजीत कौर 157 / 1885 पुत्री सुखदेव सिंह (117//9/1 )
121	117//9/2	निजी	नहरी	0.0177051	बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह पुत्र महाना सिंह 368/2073 महीन सिंह पुत्र छितिन कौर पुत्री महान सिंह 158/2073 सुरजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह 65/2073 जगदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह 11/2073 भाग दिलबाग सिंह पुत्र धीर सिंह पुत्र भाना सिंह 77/4146 जसपाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र भाना सिंह 215/2073 भाग गुरमेल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र भाना सिंह 215/2073 भाग राजविंदर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह पुत्र मेहर सिंह 535/4146 शिव शक्ति शिक्षा खंड गिदबाहा 7/2073 सुरेन्द्र पाल सिंह

					<p>पुत्र जगदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1/4146 अमरपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 1/4146 नरिंदर कौर पुत्री जोगिंदर सिंह पुत्र मैहर सिंह भाग 163/2073 बलजिंदर कौर पुत्री जोगिंदर सिंह पुत्र मेहर सिंह 163/2073 भाग परमजीत कौर विधवा पिरथी पाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 65/4146 भाग भूपिंदर कौर पुत्री पिथी पाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 19/1382 सरूपिंदर कौर पुत्री पिथी पाल सिंह का बेटा जोगिंदर सिंह 19/1382 हरिंदरपाल सिंह पुत्र पिथी पाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह भाग 21/691 परवीनपाल सिंह पुत्र पिथी पाल सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 21/691 बीरविंदर सिंह पुत्र राजविंदर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह 35/1382 भाग एडवर्ड गंज पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन एसोसिएट रजिस्ट्रार मलोट मुक्तसर साहिब 91/2073 भाग अमरजीत कौर पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्र उजगार सिंह 14/691 (117//9/2 )</p>
122	118//10	निजी	नहरी	0.0227637	<p>अशोक कुमार पुत्र राम प्रताप पुत्र रौनक राम 40/207 भाग अनिल कुमार पुत्र अभनाश चंद्र पुत्र बूटा राम 40/207 भाग धर्मचंद पुत्र इंदरमल पुत्र मोहन लाल 461/1863 भाग भूपिंदर सिंह पुत्र हरनेक सिंह पुत्र नारायण सिंह 5/81 रमनदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह पुत्र हरचरण सिंह 17/69 जतिंदर कौर पत्नी गुरमेल सिंह पुत्र करनैल सिंह 4/69 (118//10 )</p>
123	118//6/2	निजी	नहरी	0.0278223	<p>दिलबाग सिंह पुत्र धीर सिंह (118//6/2 )</p>
124	118//7	निजी	नहरी	0.0328809	<p>दिलबाग सिंह पुत्र धीर सिंह (118//7 )</p>

125	118//8	निजी	नहरी	0.0278223	एडवर्डगंज पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन (118//8 )
126	118//9	निजी	नहरी	0.0227637	मालविंदर सिंह पुत्र जीवन सिंह पुत्र सेवा सिंह 19/101 भाग गुरिकाल सिंह पुत्र जीवन सिंह सेवा सिंह 19/101 भाग प्रिमपाल सिंह पुत्र जीवन सिंह पुत्र सेवा सिंह 19/101 दीपक कुमार पुत्र नाथू राम पुत्र दाना राम 10/101 उषा रानी पत्नी नाथू राम पुत्र दाना राम 10/101 की हिस्सेदारी जतिंदर कौर पत्नी गुरमेल सिंह पुत्र करनैल सिंह 24/101 (118//9 )
127	119//11	निजी	नहरी	0.0126465	गज्जन सिंह पुत्र काकर सिंह पुत्र माह सिंह 969/2422 भाग प्रीतम सिंह पुत्र निष्का सिंह पुत्र प्रताप सिंह 969/2422 भाग मोहन लाल पुत्र राम प्रताप पुत्र रौनक राम 7/173 भाग अशोक कुमार पुत्र राम परताप पुत्र रौनक राम 7/173 सरिता रानी पत्नी महेंद्र कुमार पुत्र अविनाश चंद्र 7/346 भाग सुनीता रानी पत्नी अशोक कुमार पुत्र अविनाश चंद्र 7/346 भाग पूनम रानी पत्नी रविंदर कुमार पुत्र अविनाश चंद्र 7/346 भाग पिकी पत्नी अनिल कुमार अविनाश चंद्र 7/346 शेयर हरपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र बचित्तर सिंह 10/1211 भाग शिवराज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र बच्चितर सिंह 10/1211 गुरचरण सिंह पुत्र बच्चितर सिंह पुत्र भजन सिंह भाग 23/2422 सुखराज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र बच्चितर सिंह भाग 23/2422 अमरजीत कौर विधवा सुखदेव सिंह पुत्र बच्चितर सिंह 3/1211 भाग (119//11 )
128	119//6	निजी	नहरी	0.0278223	शिव शक्ति एजुकेशन सोसाइटी (3-14), धर्मचंद पुत्र इंदरमल पुत्र मोहन

					लाल 259/1125 भूपिंदर सिंह पुत्र हरनेक सिंह पुत्र नारायण सिंह भाग 13/225 भोलो पुत्री करनैल सिंह पुत्र बाला सिंह 1/5 भाग सुखदीप कौर पत्नी राजपाल सिंह पुत्र मोहन सिंह 7/25 रमनदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह पुत्र हरचरण सिंह 29/125 (5-8) (119//6 )
129	119//7	निजी	नहरी	0.0328809	शिव शक्ति एजुकेशन सोसायटी गिदड़बाहा (119//7 )
130	119//8	निजी	नहरी	0.0303516	शिव शक्ति एजुकेशन सोसायटी गिदड़बाहा (119//8 )
131	119//9	निजी	नहरी	0.0227637	गज्जन सिंह पुत्र काकर सिंह पुत्र माह सिंह 969/2422 भाग प्रीतम सिंह पुत्र निक्का सिंह पुत्र प्रताप सिंह 969/2422 भाग मोहन लाल पुत्र राम प्रताप पुत्र रौनक राम 7/173 भाग अशोक कुमार पुत्र राम परताप पुत्र रौनक राम 7/173 सरिता रानी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्र अविनाश चंद्र 7/346 भाग सुनीता रानी पत्नी अशोक कुमार पुत्र अविनाश चंद्र 7/346 भाग पूनम रानी पत्नी रविंदर कुमार पुत्र अविनाश चंद्र 7/346 भाग पिकी पत्नी अनिल कुमार अविनाश चंद्र 7/346 शेयर हरपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र बच्चितर सिंह 10/1211 भाग शिवराज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह पुत्र बच्चितर सिंह 10/1211 गुरचरण सिंह पुत्र बच्चितर सिंह पुत्र भजन सिंह भाग 23/2422 सुखराज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र बच्चितर सिंह भाग 23/2422 अमरजीत कौर विधवा सुखदेव सिंह पुत्र बच्चितर सिंह 3/1211 भाग (119//9 )
132	226	सरकारी	गैर मुमकिन	0.126465	अल्पकालीन सरकार

					(226)
133	271	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0455274	ग्राम पंचायत (271 )
134	533	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत (533 )
135	534	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत (534 )
136	535	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत (535 )
137	541	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत (541 )
138	569	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत (569 )
139	570	सरकारी(पंचायत )	गैर मुमकिन	0.0025293	ग्राम पंचायत (570 )
140	कैनाल	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0025293	अल्पकालीन सरकार (कैनाल)
			कुल	3.8268309	

[फा. सं. 25044/NHAI/PIU/BTI/2018/URS/P-II/3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2020

**S.O. 598 (E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.3342(E) date 17th September 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH7 on the stretch of land from Km 109 to Km 93 (Bathianda -Malout section ) in the district of SRI MUKTSAR SAHIB in the state of PUNJAB.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” and “AJit (In Punjabi)” both dated 21st October, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH7 in the stretch of land from Km 109.00 to Km 93.00 of **NH7 (Bathinda-Malout section)** in the District of SRI MUKTSAR SAHIB in the State of PUNJAB

State: PUNJAB		District: SRI MUKTSAR SAHIB			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	<b>Taluk: Gidderbaha</b>				
	<b>Village: Bharu (9)</b>				
1	147	Private	Gair Mumkin+ Nahari	0.0075879	Manjit Kaur Wd/o and Sukhcharan Singh Jagjit Singh S/o Harmandir Singh 1/2 and Resham Singh S/o Karnail Singh 1/2 147
2	148	Private	Nahari	0.0126465	Ajmer Singh son Guraditta Singh son Sundar Singh 55/8361 Part Biker Singh son Guraditta Singh son Sundar Singh 93/929 Gurdev Kaur Widow Gurcharan Singh Son Gurditta Singh Part 46/2787 Sukhraj Singhs son Gurdev Singh son Dan Singh 385/8361 Balbir Kaurs daughter Dan Singh son Dara Singh 577/8361 Part Naseeb Kaurs daughter Dan Singh son Dara Singh 577/8361 Sukhdev Kaur Widow Gahwva Singh Part 257/11148 Ropal Singhs son, Gahwva Singhs son Dan Singh, 257/11148 Jalour Singhs son Gahwva Singh son Dan Singh Part 257/11148 Kaur Singh son Gahwva Singh son Dan Singh Part 257/11148 Jasvir Kaur widow Ranjit Singh son Dan Singh Part 385/25083 Gurmel Singh son Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Guddis daughter Ranjit Singhs son Dan Singh 385/25083 Virpal Kaurs daughter Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Chinderpal Kaurs daughter Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Gindo W/o Ranjit Singhs son Dan Singh 385/25083 part Susil Devis wife Hans Raj son Thakur Das Part 139/8361 Kanchan wife Pardaman Singh son Harbhajan

					<p> Singh 296/8361 share Bhushan Kumar son Manohar Singh son Jeet Singh 329/8361 Ashok Kumar son Charanji Lal son Siv Chand 592/8361 Sukhpal Singh son Baldev Singh son Guraditta Singh 11/16722 Part Sukhwinder Singh son Baldev Singh son Guraditta Singh 11/16722 Part Harjinder Singh son Darshan Singh son Baldev Singh 5/16722 part Lakhwinder Singh son Darshan Singh son Baldev Singh Part 5/16722 Manjit Kaurs wife Sukhwinder Singh son Baldev Singh 41/8361 Harcharan Singh son Babu Singh son Sarup Singh 109/8361 Part Deep Inder Singh son Babu Singh son Sarup Singh 107/5574 Part Shushma Devi wife Krishna Kumar son Deep Chand 64/8361 share Kiran Devis wife Vality Ram son Deep Chand resident Giddabhah 167/8361 Neelam Jain daughter Kashmiri Lal son Deep Chand 116/25083 Part Kamlesh Jain daughter Kashmiri Lal son Deep Chand 116/25083 Part Sunil Jain Son Kashmiri Lal Son Deep Chand 116/25083 Part Ranjit Kaurs wife Babu Singh son Saroop Singh 98/2787 Part Paramjit Kaur Daughter Nand Kaur Daughter Dhan Singh Part 289/8361 Gurdas Kaur Putri Nand Kaur Putri Dan Singh Part 289/8361 Hardeep Singhs son Kaka Singhs daughter Mitt Singh 4/8361 Arunjit Singh Sodhi son Manjinder Singh son Bachitra Singh 25/16722 Tarsem Lal son Prakash Chand son Burma Ram 25/16722 part Mani son Vijay Kumar son Harnek Singh 11/5574 Part Suba Singh son Ram Singh son Gurdial Singh 7/8361 Darshana Devis wife Amrit Lal son Siri Ram 2/929 Amrat Pal son Meher Chand son Kaka Ram 1/929 share Bharpur Singh son Mukhtar Singh son Kishan Singh 2/929 Jugal Kishore son Hans Raj son Jai Ram 25/8361 part Amit Kumar son Surinder Kumar son Bansi Ram 1/929 Jaswinder Singh son Sukhdev Singh son Jangir Singh Part 19/16722 Dharam Singh son Gurdeep Singh son Pal Singh 19/16722 part Tarsem Singh son Mahinder Singh son Mehar Singh 22/8361 Mohinderpal son Sonam Ram son Nihala Ram 4/8361 Charanjit Singh son Fateh Singh </p>
--	--	--	--	--	--

					<p>son Mela Ram 1/16722 part  Paramjit Kaurs wife Sukhpal  Singhs son Mahinder Singh  47/16722 Gurdev Singh son Puran  Singh son Mitt Singh 4/929 Ranjit  Singh son Mahinder Singh son  Kaka Singh 1/1858 Part Simerjit  Singh son Mahinder Singh son  Kaka Singh 1/1858 Part Balbir  Singh son Dara Singh son Prem  Singh 2/929 Harbans Lal son  Prakash Chandra son Burma Ram  5/5574 part Tarsem Lal son Prakash  Chandra son Burma Ram 5/5574  part Sunita Rani wife Parshotam  Lal son Pradyal 2/929 Ruchika  Jindal wife Manoj Kumar son  Darshan Lal 2/929 Neelam Jain  wife Subhash Jain son Mahiga Ram  65/16722 part Rajinis wife Raster  Deepak son Surinder Kumar  65/16722 part Surjit Kaurs wife  Mukhtiar Singh son Lal Singh  23/8361 Sarabjit Kaur wife Kaur  Singh son Buta Singh 47/16722  part Gurdev Singh son Jagger Singh  son Bhagwan Singh Part 23/8361  Rakesh Ranis wife Surinder  Kumars son Kashmiri Lal 1/1858  Sudesh Ranis wife Suresh Kumars  son Nathu Ram 1/1858 Harshit  Bansal son Ashok Bansal son  Bihari Lal 10/929 part Anmol  Bansal Son Ashok Bansal Son  Bihari Lal 10/929 Part Veena Ranis  wife Amit Kumar son Surinder  Kumar 29/16722 part Gurkeerat  Singh son Chatar Singh son  Gurbaksh Singh 2/929 Shivraj  Singh son Roordh Singh son  Nishan Singh 4/8361 Shimla Ranis  wife Surinder Pal Taghri son  Harbans Lal 8/8361 share Guddi  Devis wife Chiman Lal son Udasi  Ram 1/929 share Veena Ranis wife  Baldev Kumar son Bihari Lal  91/2787 share Kuldeep Singh son  Gurdev Singh son Dan Singh  385/8361 KH no- 148 (5-8), KH  no-149 (2-3) , KH no-150 (1-9),  Som Prakesh and Naresh Kumar  S/o Tej Ram KH no-149 (0-17)  148</p>
3	149	Private	Gair Mumkin+ Nahari	0.0050586	<p>Ajmer Singh son Guraditta Singh  son Sundar Singh 55/8361 Part  Biker Singh son Guraditta Singh  son Sundar Singh 93/929 Gurdev  Kaur Widow Gurcharan Singh Son  Gurditta Singh Part 46/2787  Sukhraj Singhs son Gurdev Singh  son Dan Singh 385/8361 Balbir</p>

					<p> Kaurs daughter Dan Singh son Dara Singh 577/8361 Part Naseeb Kaurs daughter Dan Singh son Dara Singh 577/8361 Sukhdev Kaur Widow Gahwva Singh Part 257/11148 Ropal Singhs son, Gahwva Singhs son Dan Singh, 257/11148 Jalour Singhs son Gahwva Singh son Dan Singh Part 257/11148 Kaur Singh son Gahwva Singh son Dan Singh Part 257/11148 Jasvir Kaur widow Ranjit Singh son Dan Singh Part 385/25083 Gurmel Singh son Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Guddis daughter Ranjit Singhs son Dan Singh 385/25083 Virpal Kaurs daughter Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Chinderpal Kaurs daughter Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Gindo W/o Ranjit Singhs son Dan Singh 385/25083 part Susil Devis wife Hans Raj son Thakur Das Part 139/8361 Kanchan wife Pardaman Singh son Harbhajan Singh 296/8361 share Bhushan Kumar son Manohar Singh son Jeet Singh 329/8361 Ashok Kumar son Charanji Lal son Siv Chand 592/8361 Sukhpal Singh son Baldev Singh son Guraditta Singh 11/16722 Part Sukhwinder Singh son Baldev Singh son Guraditta Singh 11/16722 Part Harjinder Singh son Darshan Singh son Baldev Singh 5/16722 part Lakhwinder Singh son Darshan Singh son Baldev Singh Part 5/16722 Manjit Kaurs wife Sukhwinder Singh son Baldev Singh 41/8361 Harcharan Singh son Babu Singh son Sarup Singh 109/8361 Part Deep Inder Singh son Babu Singh son Sarup Singh 107/5574 Part Shushma Devi wife Krishna Kumar son Deep Chand 64/8361 share Kiran Devis wife Vality Ram son Deep Chand resident Giddabhah 167/8361 Neelam Jain daughter Kashmiri Lal son Deep Chand 116/25083 Part Kamlesh Jain daughter Kashmiri Lal son Deep Chand 116/25083 Part Sunil Jain Son Kashmiri Lal Son Deep Chand 116/25083 Part Ranjit Kaurs wife Babu Singh son Saroop Singh 98/2787 Part Paramjit Kaur Daughter Nand Kaur Daughter Dhan Singh Part 289/8361 Gurdas Kaur Putri Nand Kaur Putri Dan Singh Part 289/8361 Hardeep Singhs son Kaka </p>
--	--	--	--	--	---

					<p> Singhs daughter Mitt Singh 4/8361  Arunjit Singh Sodhi son Manjinder  Singh son Bachitra Singh 25/16722  Tarsem Lal son Prakash Chand son  Burma Ram 25/16722 part Mani  son Vijay Kumar son Harnek Singh  11/5574 Part Suba Singh son Ram  Singh son Gurdial Singh 7/8361  Darshana Devis wife Amrit Lal son  Siri Ram 2/929 Amrat Pal son  Meher Chand son Kaka Ram 1/929  share Bharpur Singh son Mukhtar  Singh son Kishan Singh 2/929  Jugal Kishore son Hans Raj son Jai  Ram 25/8361 part Amit Kumar son  Surinder Kumar son Bansi Ram  1/929 Jaswinder Singh son Sukhdev  Singh son Jangir Singh Part  19/16722 Dharam Singh son  Gurdeep Singh son Pal Singh  19/16722 part Tarsem Singh son  Mahinder Singh son Mehar Singh  22/8361 Mohinderpal son Sonam  Ram son Nihala Ram 4/8361  Charanjit Singh son Fateh Singh  son Mela Ram 1/16722 part  Paramjit Kaurs wife Sukhpal  Singhs son Mahinder Singh  47/16722 Gurdev Singh son Puran  Singh son Mitt Singh 4/929 Ranjit  Singh son Mahinder Singh son  Kaka Singh 1/1858 Part Simerjit  Singh son Mahinder Singh son  Kaka Singh 1/1858 Part Balbir  Singh son Dara Singh son Prem  Singh 2/929 Harbans Lal son  Prakash Chandra son Burma Ram  5/5574 part Tarsem Lal son Prakash  Chandra son Burma Ram 5/5574  part Sunita Rani wife Parshotam  Lal son Pradyal 2/929 Ruchika  Jindal wife Manoj Kumar son  Darshan Lal 2/929 Neelam Jain  wife Subhash Jain son Mahiga Ram  65/16722 part Rajinis wife Raster  Deepak son Surinder Kumar  65/16722 part Surjit Kaurs wife  Mukhtiar Singh son Lal Singh  23/8361 Sarabjit Kaur wife Kaur  Singh son Buta Singh 47/16722  part Gurdev Singh son Jagger Singh  son Bhagwan Singh Part 23/8361  Rakesh Ranis wife Surinder  Kumars son Kashmiri Lal 1/1858  Sudesh Ranis wife Suresh Kumars  son Nathu Ram 1/1858 Harshit  Bansal son Ashok Bansal son  Bihari Lal 10/929 part Anmol  Bansal Son Ashok Bansal Son  Bihari Lal 10/929 Part Veena Ranis  wife Amit Kumar son Surinder  Kumar 29/16722 part Gurkeerat </p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Singh son Chatar Singh son Gurbaksh Singh 2/929 Shivraj Singh son Roordh Singh son Nishan Singh 4/8361 Shimla Ranis wife Surinder Pal Taghri son Harbans Lal 8/8361 share Guddi Devis wife Chiman Lal son Udasi Ram 1/929 share Veena Ranis wife Baldev Kumar son Bihari Lal 91/2787 share Kuldeep Singh son Gurdev Singh son Dan Singh 385/8361 KH no- 148 (5-8), KH no-149 (2-3) , KH no-150 (1-9), Som Prakesh and Naresh Kumar S/o Tej Ram KH no-149 (0-17) 149</p>
4	150	Private	Nahari	0.0151758	<p>Ajmer Singh son Guraditta Singh son Sundar Singh 55/8361 Part Biker Singh son Guraditta Singh son Sundar Singh 93/929 Gurdev Kaur Widow Gurcharan Singh Son Gurditta Singh Part 46/2787 Sukhraj Singhs son Gurdev Singh son Dan Singh 385/8361 Balbir Kaurs daughter Dan Singh son Dara Singh 577/8361 Part Naseeb Kaurs daughter Dan Singh son Dara Singh 577/8361 Sukhdev Kaur Widow Gahwva Singh Part 257/11148 Ropal Singhs son, Gahwva Singhs son Dan Singh, 257/11148 Jalour Singhs son Gahwva Singh son Dan Singh Part 257/11148 Kaur Singh son Gahwva Singh son Dan Singh Part 257/11148 Jasvir Kaur widow Ranjit Singh son Dan Singh Part 385/25083 Gurmel Singh son Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Guddis daughter Ranjit Singhs son Dan Singh 385/25083 Virpal Kaurs daughter Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Chinderpal Kaurs daughter Ranjit Singh son Dan Singh 385/25083 Part Gindo W/o Ranjit Singhs son Dan Singh 385/25083 part Susil Devis wife Hans Raj son Thakur Das Part 139/8361 Kanchan wife Pardaman Singh son Harbhajan Singh 296/8361 share Bhushan Kumar son Manohar Singh son Jeet Singh 329/8361 Ashok Kumar son Charanji Lal son Siv Chand 592/8361 Sukhpal Singh son Baldev Singh son Guraditta Singh 11/16722 Part Sukhwinder Singh son Baldev Singh son Guraditta Singh 11/16722 Part Harjinder Singh son Darshan Singh son Baldev Singh 5/16722 part Lakhwinder Singh son Darshan</p>

					<p> Singh son Baldev Singh Part  5/16722 Manjit Kaurs wife  Sukhwinder Singh son Baldev  Singh 41/8361 Harcharan Singh son  Babu Singh son Sarup Singh  109/8361 Part Deep Inder Singh  son Babu Singh son Sarup Singh  107/5574 Part Shushma Devi wife  Krishna Kumar son Deep Chand  64/8361 share Kiran Devis wife  Vality Ram son Deep Chand  resident Giddabhah 167/8361  Neelam Jain daughter Kashmiri Lal  son Deep Chand 116/25083 Part  Kamlesh Jain daughter Kashmiri  Lal son Deep Chand 116/25083  Part Sunil Jain Son Kashmiri Lal  Son Deep Chand 116/25083 Part  Ranjit Kaurs wife Babu Singh son  Saroop Singh 98/2787 Part Paramjit  Kaur Daughter Nand Kaur  Daughter Dhan Singh Part  289/8361 Gurdas Kaur Putri Nand  Kaur Putri Dan Singh Part  289/8361 Hardeep Singhs son Kaka  Singhs daughter Mitt Singh 4/8361  Arunjit Singh Sodhi son Manjinder  Singh son Bachitra Singh 25/16722  Tarsem Lal son Prakash Chand son  Burma Ram 25/16722 part Mani  son Vijay Kumar son Harnek Singh  11/5574 Part Suba Singh son Ram  Singh son Gurdial Singh 7/8361  Darshana Devis wife Amrit Lal son  Siri Ram 2/929 Amrat Pal son  Meher Chand son Kaka Ram 1/929  share Bharpur Singh son Mukhtar  Singh son Kishan Singh 2/929  Jugal Kishore son Hans Raj son Jai  Ram 25/8361 part Amit Kumar son  Surinder Kumar son Bansi Ram  1/929 Jaswinder Singh son Sukhdev  Singh son Jangir Singh Part  19/16722 Dharam Singh son  Gurdeep Singh son Pal Singh  19/16722 part Tarsem Singh son  Mahinder Singh son Mehar Singh  22/8361 Mohinderpal son Sonam  Ram son Nihala Ram 4/8361  Charanjit Singh son Fateh Singh  son Mela Ram 1/16722 part  Paramjit Kaurs wife Sukhpal  Singhs son Mahinder Singh  47/16722 Gurdev Singh son Puran  Singh son Mitt Singh 4/929 Ranjit  Singh son Mahinder Singh son  Kaka Singh 1/1858 Part Simerjit  Singh son Mahinder Singh son  Kaka Singh 1/1858 Part Balbir  Singh son Dara Singh son Prem  Singh 2/929 Harbans Lal son  Prakash Chandra son Burma Ram </p>
--	--	--	--	--	--

					<p>5/5574 part Tarsem Lal son Prakash Chandra son Burma Ram 5/5574 part Sunita Rani wife Parshotam Lal son Pradyal 2/929 Ruchika Jindal wife Manoj Kumar son Darshan Lal 2/929 Neelam Jain wife Subhash Jain son Mahiga Ram 65/16722 part Rajinis wife Raster Deepak son Surinder Kumar 65/16722 part Surjit Kaurs wife Mukhtiar Singh son Lal Singh 23/8361 Sarabjit Kaur wife Kaur Singh son Buta Singh 47/16722 part Gurdev Singh son Jagger Singh son Bhagwan Singh Part 23/8361 Rakesh Ranis wife Surinder Kumars son Kashmiri Lal 1/1858 Sudesh Ranis wife Suresh Kumars son Nathu Ram 1/1858 Harshit Bansal son Ashok Bansal son Bihari Lal 10/929 part Anmol Bansal Son Ashok Bansal Son Bihari Lal 10/929 Part Veena Ranis wife Amit Kumar son Surinder Kumar 29/16722 part Gurkeerat Singh son Chatar Singh son Gurbaksh Singh 2/929 Shivraj Singh son Roordh Singh son Nishan Singh 4/8361 Shimla Ranis wife Surinder Pal Taghri son Harbans Lal 8/8361 share Guddi Devis wife Chiman Lal son Udasi Ram 1/929 share Veena Ranis wife Baldev Kumar son Bihari Lal 91/2787 share Kuldeep Singh son Gurdev Singh son Dan Singh 385/8361 KH no- 148 (5-8), KH no-149 (2-3) , KH no-150 (1-9), Som Prakesh and Naresh Kumar S/o Tej Ram KH no-149 (0-17) 150</p>
5	155	Private	Gair Mumkin	0.0202344	<p>Narendra Kumar son Chimaan Lal son Munshi Ram 4 part Vinod Kumar son Baldev Sahai son Kanwar Sen 189 Ramesh Kumar Part 4 Rakesh Kumar 219/1872 part Son Amar Nath son Lakhu Mall - Sajjal Prem Pissar Mutvana Ramnath son Hans Raj Part 207 Desh Raj Son Jagan Nath Son Lakhu Mall 198 Part Saroop Chand son Rikhi Ram 45 parts Jayant Garg Karishi Garg son Rakesh Kumar son Saroop Chand Ba Part Equal to 20 parts Sushma wife Kailas Chandra son Saroop Chand 19 part Parmjot alias Prashant son Ramesh Kumar son Amar Nath 81 part Parveen Ranis wife Tarsem Kumars son Babu Ram 12 share Neelam Ranis wife Vinod Kumars</p>

					son Baldev Sahay 12 share Asis Kumar son Rajinder Kumar son Hukam Chand 12/936 Om Prakash Son Des Raj Son Son Jagan Nath 47/1872 Part 155
6	Rasta	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat
<b>Village: Doula (8)</b>					
7	24//10	Private	Nahari	0.0328809	Charanjit Singh and Jaspal Singh S/o Avtar Singh 1138/1324, Amerjit Kaur W/o Avtar Singh 93/662 24//10
8	25//13	Private	Nahari	0.0556446	Amarjit Singh S/o Mukhtar Singh S/o Bhag Singh 5/552 Nachtar Singh S/o Lal Singh S/o Thoba Singh 1/3 share Gurjant Singh S/o Avtar Singh S/o Lal Singh 1/18 Balwinder Singh S/o Avtar Singh S/o Lal Singh 1/18 share Mohinder Singh S/o Avtar Singh S/o Lal Singh 1/18 share Harbhagwan Singh S/o Gurjant Singh S/o Kartar Singh 1/1656 Simranjit Kaur W/o Harcharan Singhs S/o 89/1104 Seema W/o Swarna Singh 89/1104 share Harcharan Singh S/o Vaisakha Singh S/o Hazur Singh 269/3312 Swaran Singh S/o Vaisakha Singh S/o Hajur Singh 269/3312 Sarabjit Kaur W/o Amarjit Singhs S/o Mukhtiar Singh 1/6 share 25//13
9	25//14	Private	Nahari	0.0455274	Guraditta Singh Urf Gurmail Singh S/o Darshan Singh 29/118, Parminder Kaur W/o Jaswant Singh 1/2, Amandeep Singh S/o Guraditta Singh 15/59 (5-18) Nachattar Singh and Jeet Singh S/o Jarnail Singh (0-9) 25//14
10	25//15	Private	Nahari	0.0404688	Charanjit Singh and Jaspal Singh S/o Avtar Singh 1138/1324, Amerjit Kaur W/o Avtar Singh 93/662 25//15
11	25//19	Private	Nahari	0.0607032	Guraditta Singh Urf Gurmail Singh S/o Darshan Singh 752/3425, Gursher Singh S/o Jaswant Singh 1333/3425, Harpreet Singh S/o Guraditta Singh Urf Gurmail Singh 32/137 Parminder Kaur W/o Jaswant Singh 108/685 25//19
12	25//20	Private	Nahari	0.0480567	Guraditta Singh Urf Gurmail Singh

					S/o Darshan Singh 752/3425, Gursher Singh S/o Jaswant Singh 1333/3425, Harpreet Singh S/o Guraditta Singh Urf Gurmail Singh 32/137 Parminder Kaur W/o Jaswant Singh 108/685 25//20
13	26//16	Private	Nahari	0.0429981	Daljit Singh 333/1487, Gurmit Singh 1051/2974 S/o Bogh Singh, Bogh Singh S/o Mehar Singh 1257/2974 26//16
14	26//17	Private	Nahari	0.0379395	Daljit Singh 333/1487, Gurmit Singh 1051/2974 S/o Bogh Singh, Bogh Singh S/o Mehar Singh 1257/2974 26//17
15	26//21	Private	Nahari	0.0278223	Jaspal Singh S/o Jeet Singh 1/23, Manjinder Singh S/o Jaspal Singh 7/184, Daljit Singh 9/23, Gurmit Singh 97/184 S/o Bogh Singh 26//21
16	26//22/1	Private	Nahari	0.0075879	Jaspal Singh S/o Jeet Singh 1/23, Manjinder Singh S/o Jaspal Singh 7/184, Daljit Singh 9/23, Gurmit Singh 97/184 S/o Bogh Singh 26//22/1
17	26//22/2	Private	Nahari	0.0202344	Charanjit Singh and Jaspal Singh S/o Avtar Singh Equal Share 26//22/2
18	26//23/1	Private(Jumla Malakan)	Nahari	0.0328809	Jumla Mustaka Malkan (2-6), Daljit Singh S/o Bogh Singh (0-8) 26//23/1
19	26//23/2	Private	Nahari	0.0025293	Daljit Singh 333/1487, Gurmit Singh 1051/2974 S/o Bogh Singh, Bogh Singh S/o Mehar Singh 1257/2974 26//23/2
20	27//25	Private	Nahari	0.0025293	Jaspal Singh S/o Jeet Singhs S/o Amar Singh 144/407 Manjinder Singh S/o Jaspal Singh S/o Jeet Singh 131/407 Gurmeet Singh S/o Bogh Singh S/o Mehar Singh 83/814 Part Daljit Singh S/o Bogh Singh S/o Mehar Singh 83/814 Part Charanjit Singh S/o Avtar Singh S/o Mehar Singh 49/814 Jaspal Singh S/o Avtar Singh S/o Mehar Singh 49/814 (4-11) Provisional Government (0-13) k no-27/25 27//25
21	35//23/1	Private	Gair Mumkin+ Nahari	0.0227637	Nihal Singh S/o Atma Singh 35//23/1
22	35//24	Private	Nahari	0.0101172	Gurlabh Singh S/o Sukhdev Singh S/o Karnail Singh 172/11103 Part

					<p>Sukhdev Kaur S/o Sukhdev Singhs S/o, Karnail Singh, 67/11103 Baldev Singh S/o Roop Singh S/o Bhag Singh 288/3701 Baldev Kaur D/o Bikar Singh S/o Gurpal Singh 667/3701 Part Kamlesh Rani Wd/o Durga Das S/o Jagan Nath 64/3701 share Okar Singh S/o Nihal Singh S/o Atma Singh 24/3701 Avtar Singh S/o Nihal Singh S/o Atma Singh 24/3701 Gurmeet Singh S/o Mahekam Singh S/o Jarnail Singh 647/7402 Malkit Singh S/o Mahekam Singh S/o Jarnail Singh Part 647/7402 Amritpal Singh S/o Jangir Singh S/o Karnail Singh 25/3701 Samit Bansal S/o Ramesh Kumar S/o Shivaji Ram 58/3701 share Sanjeev Kumar S/o Raj Kumar S/o Roshan Lal 61/3701 Part Prem Kumar S/o Raj Kumar S/o Roshan Lal 67/3701 Part Baljinder Singh S/o Dilbag Singh S/o Sher Singh 10/3701 Part Randhir Singh S/o Dilbag Singh S/o Sher Singh 10/3701 Part Sukhraj Kaur alias Raj Kaur W/o Gurcharan Singh S/o Jaswant Singh 80/3701 Baljit Kaur alias Jeet Kaur S/o Balkar Singh S/o Jaswant Singh 80/3701 Gurdev Kaur Wd/o Mahikam Singh S/o Jarnail Singh Part 290/3701 Baljeet Kaur S/o Amritpal Singhs S/o Jangir Singh 140/3701 share Amit Bansal S/o Ramesh Kumar S/o Sivaji Ram 58/3701 share Deputy Singh S/o Roop Singh S/o Bhag Singh 128/3701 Part Parveer Singhs S/o Major Singhs S/o Bhag Singh 128/3701 Major Singh S/o Roop Singh S/o Bhag Singh 127/3701 Gurpreet Kaur S/o Malkit Singhs S/o Mahikam Singh 9/3701 Sukhpreet Kaur S/o Gurmeet Singhs S/o Mahikam Singh 9/3701 k no- 35//24 (6-10) 25 (5-14) Ashavi Kumar S/o Durga dass, Kamlish Rani wd /o Durga Dass k no- 35/25 (1-13) 35//24</p>
23	35//25	Private	Nahari	0.0151758	<p>Gurlabh Singh S/o Sukhdev Singh S/o Karnail Singh 172/11103 Part Sukhdev Kaur S/o Sukhdev Singhs S/o, Karnail Singh, 67/11103 Baldev Singh S/o Roop Singh S/o Bhag Singh 288/3701 Baldev Kaur D/o Bikar Singh S/o Gurpal Singh 667/3701 Part Kamlesh Rani Wd/o Durga Das S/o</p>

					Jagan Nath 64/3701 share Okar Singh S/o Nihal Singh S/o Atma Singh 24/3701 Avtar Singh S/o Nihal Singh S/o Atma Singh 24/3701 Gurmeet Singh S/o Mahekam Singh S/o Jarnail Singh 647/7402 Malkit Singh S/o Mahekam Singh S/o Jarnail Singh Part 647/7402 Amritpal Singh S/o Jangir Singh S/o Karnail Singh 25/3701 Samit Bansal S/o Ramesh Kumar S/o Shivaji Ram 58/3701 share Sanjeev Kumar S/o Raj Kumar S/o Roshan Lal 61/3701 Part Prem Kumar S/o Raj Kumar S/o Roshan Lal 67/3701 Part Baljinder Singh S/o Dilbag Singh S/o Sher Singh 10/3701 Part Randhir Singh S/o Dilbag Singh S/o Sher Singh 10/3701 Part Sukhraj Kaur alias Raj Kaur W/o Gurcharan Singh S/o Jaswant Singh 80/3701 Baljit Kaur alias Jeet Kaurs W/o Balkar Singh S/o Jaswant Singh 80/3701 Gurdev Kaur Wd/o Mahikam Singh S/o Jarnail Singh Part 290/3701 Baljeet Kaurs W/o Amritpal Singhs S/o Jangir Singh 140/3701 share Amit Bansal S/o Ramesh Kumar S/o Sivaji Ram 58/3701 share Deputy Singh S/o Roop Singh S/o Bhag Singh 128/3701 Part Parveer Singhs S/o Major Singhs S/o Bhag Singh 128/3701 Major Singh S/o Roop Singh S/o Bhag Singh 127/3701 Gurpreet Kaurs W/o Malkit Singhs S/o Mahikam Singh 9/3701 Sukhpreet Kaurs W/o Gurmeet Singhs S/o Mahikam Singh 9/3701 k no- 35//24 (6-10) 25 (5-14) Ashavi Kumar S/o Durga dass, Kamlish Rani wd /o Durga Dass k no- 35/25 (1-13) 35//25
24	39//11 Min	Private	Nahari	0.0101172	Amarjit Kaur W/o Baljet Singh 15/67 , Gursharan Kaur W/o Gurcharan Singh 80/469, Harjeet Kaur W/o Hardeep Singh 142/469, Amanat Kaur W/o Sandeep Singh 142/469 39//11
25	39//12	Private	Nahari	0.0126465	Sukhdev Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Kehar Singh 1/5 share Baljit Singhs S/o Bakhtawar Singhs S/o Mahinga Singh 23/60 Sukhjiti Singhs S/o Sukhdev Singhs S/o, Bakhtawar Singh, 41/330 Parminder Kaurs W/o Baljit Singhs S/o Mahinga Singh 1/66 share Rupinder Kaur Wd/o Gurjit Singh

					S/o Mahinda Singh 101/1320 share Harmandeep Kaurs D/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 53/792 Rashandeep Kaurs D/o Gurjit Singh S/o Mahinda Singh 53/792 Manveer Singhs S/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 53/792 k no-39 // 12 (8-7) 13/1 (3-18), Sukhdeep Singh S/o Kartar Singh 138/953, Gurmail Singh S/o Gain Singh 173/953, Paramjit Kaur W/o Gurmail Singh 30/953, Sukhpal Kaur Wd/o 132/953, Balkaran Singh 312/953 S/o Jasveer Singh, Gurdeep Singh S/o Kulwant Singh 138/953, Rajani Bala W/o Rakesh Kumar 30/953 k no- 39//12 (0-9) 39//12
26	39//13/1 Min	Private	Nahari	0.0050586	Sukhdev Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Kehar Singh 1/5 share Baljit Singhs S/o Bakhtawar Singhs S/o Mahinga Singh 23/60 Sukhjait Singhs S/o Sukhdev Singhs S/o, Bakhtawar Singh, 41/330 Parminder Kaurs W/o Baljit Singhs S/o Mahinga Singh 1/66 share Rupinder Kaur Wd/o Gurjit Singh S/o Mahinda Singh 101/1320 share Harmandeep Kaurs D/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 53/792 Rashandeep Kaurs D/o Gurjit Singh S/o Mahinda Singh 53/792 Manveer Singhs S/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 53/792 k no-39 // 12 (8-7) 13/1 (3-18), Sukhdeep Singh S/o Kartar Singh 138/953, Gurmail Singh S/o Gain Singh 173/953, Paramjit Kaur W/o Gurmail Singh 30/953, Sukhpal Kaur Wd/o 132/953, Balkaran Singh 312/953 S/o Jasveer Singh, Gurdeep Singh S/o Kulwant Singh 138/953, Rajani Bala W/o Rakesh Kumar 30/953 k no- 39//12 (0-9) 39//13/1
27	39//13/2 Min	Private	Nahari	0.0075879	Rupinder Kaur widow Gurjit Singhs son Mahinga Singh 134/2403 Harmandeep Kaurs daughter Gurjit Singhs son Mahinga Singh 134/2403 Baljeet Singh son Mahenga Singh son Bakhtawar Singh 262/801 Sukhdev Singh son Bakhtawar Singh son Kehar Singh 815/2403 Part Sukhjait Singhs son Sukhdev Singhs son, Bakhtawar Singh 251/2403 Suchiar Kaur wife Bakhtawar Singh son Kehar Singh 1/2403 Part Bhaktawar Singhs son Kehar Singhs son Matab Singh 1/2403 Mahinga Singh son Bakhtawar Singh son Kehar Singh

					13/2403 Rushdeep Kaurs daughter Gurjit Singh son Mahinga Singh 134/2403 Manveer Singhs son Gurjit Singhs son Mahinga Singh 134/2403 39//13/2
28	39//14	Private	Nahari	0.0227637	Rupinder Kaur Wd/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 134/2403 Harmandeep Kaurs D/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 134/2403 Baljeet Singh S/o Mahenga Singh S/o Bakhtawar Singh 262/801 Sukhdev Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Kehar Singh 815/2403 Part Sukhjiti Singhs S/o Sukhdev Singhs S/o, Bakhtawar Singh 251/2403 Suchiar Kaur W/o Bakhtawar Singh S/o Kehar Singh 1/2403 Part Bhaktawar Singhs S/o Kehar Singhs S/o Matab Singh 1/2403 Mahinga Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Kehar Singh 13/2403 Rushdeep Kaurs D/o Gurjit Singh S/o Mahinga Singh 134/2403 Manveer Singhs S/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 134/2403 39//14
29	39//15	Private	Nahari	0.0278223	Rupinder Kaur Wd/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 134/2403 Harmandeep Kaurs D/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 134/2403 Baljeet Singh S/o Mahenga Singh S/o Bakhtawar Singh 262/801 Sukhdev Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Kehar Singh 815/2403 Part Sukhjiti Singhs S/o Sukhdev Singhs S/o, Bakhtawar Singh 251/2403 Suchiar Kaur W/o Bakhtawar Singh S/o Kehar Singh 1/2403 Part Bhaktawar Singhs S/o Kehar Singhs S/o Matab Singh 1/2403 Mahinga Singh S/o Bakhtawar Singh S/o Kehar Singh 13/2403 Rushdeep Kaurs D/o Gurjit Singh S/o Mahinga Singh 134/2403 Manveer Singhs S/o Gurjit Singhs S/o Mahinga Singh 134/2403 39//15
30	40//11	Private	Nahari	0.0227637	Paminder kaur W/o Baljit Singh 11/192, Mehar Singh S/o Parasram 5/24, Sukhwinder Kaur W/o Karnail Singh 41/192, Balbir kaur W/o Thana Singh 25/96, Sukhwinder Kaur W/o Gurdeep Singh 25/96 40//11
31	40//12	Private	Nahari	0.0379395	Malkit Singh S/o Gopal Singh 1/10, Gurdev Kaur Wd/o and Mahinder Kaur Joginder Kaur Jasvir Kaur d/o Gurdev Singh 4/50, Hakam Singh

					S/o Gudev Singh 17/100, Bogha Singh and Tehal Singh S/o Bhanga Singh 6/80, Jaswinder Singh S/o Labh Singh 1/6, Mukhbain Singh S/o Kulwant Singh 1/6, Reham Singh S/o Jaswant Singh 1/6 , Manmit Singh S/o Tehal Singh 3/80, Jagmit Singh S/o Bogha Singh 3/80 40//12
32	40//13	Private	Nahari	0.0404688	Malkit Singh S/o Gopal Singh 1/10, Gurdev Kaur Wd/o and Mahinder Kaur Joginder Kaur Jasvir Kaur d/o Gurdev Singh 4/50, Hakam Singh S/o Gudev Singh 17/100, Bogha Singh and Tehal Singh S/o Bhanga Singh 6/80, Jaswinder Singh S/o Labh Singh 1/6, Mukhbain Singh S/o Kulwant Singh 1/6, Reham Singh S/o Jaswant Singh 1/6 , Manmit Singh S/o Tehal Singh 3/80, Jagmit Singh S/o Bogha Singh 3/80 40//13
33	40//14/1	Private	Nahari	0.0126465	Malkit Singh S/o Gopal Singh 1/10, Gurdev Kaur Wd/o and Mahinder Kaur Joginder Kaur Jasvir Kaur d/o Gurdev Singh 4/50, Hakam Singh S/o Gudev Singh 17/100, Bogha Singh and Tehal Singh S/o Bhanga Singh 6/80, Jaswinder Singh S/o Labh Singh 1/6, Mukhbain Singh S/o Kulwant Singh 1/6, Reham Singh S/o Jaswant Singh 1/6 , Manmit Singh S/o Tehal Singh 3/80, Jagmit Singh S/o Bogha Singh 3/80 40//14/1
34	40//14/2	Private	Nahari	0.0101172	Arti W/o Abhishak 19/60, simi W/o Sanjay 19/60, Sunita Rani W/o Surinder Kumar 19/60, Shiwani Wadhwa W/o Rajesh Kumar 1/20 40//14/2
35	42//2	Private	Nahari	0.0101172	Ashwani Kumar S/o Durga Dass 42//2
36	42//3	Private	Nahari	0.0151758	Ashwani Kumar S/o Durga Dass 42//3
37	42//4/1	Private	Nahari	0.0025293	Provisional Government 42//4/1
38	42//4/2	Private	Nahari	0.0101172	Ashwani Kumar S/o Durga Dass 42//4/2
39	42//5	Common	Gair Mumkin+ Nahari	0.0177051	Jaspal Singh S/o Jeet Singhs S/o Amar Singh 144/407 Manjinder Singh S/o Jaspal Singh S/o Jeet Singh 131/407 Gurmeet Singh S/o Bogh Singh S/o Mehar Singh 83/814 Part Daljit Singh S/o Bogh

					Singh S/o Mehar Singh 83/814 Part Charanjit Singh S/o Avtar Singh S/o Mehar Singh 49/814 Jaspal Singh S/o Avtar Singh S/o Mehar Singh 49/814 (4-11) Provisional Government (0-13) k no-27/25 42//5
40	Canal	Government	Gair Mumkin	0.0025293	Provisional Government Canal
41	Canal	Government	Nahari	0.0050586	Provisional Government Canal
42	Canal	Government	Gair Mumkin	0.0025293	Provisional Government Canal
43	Canal	Government	Gair Mumkin	0.0025293	Provisional Government Canal
44	Canal	Government	Gair Mumkin	0.0025293	Provisional Government Canal
45	Rasta	Government( Rasta )	Nahari	0.0025293	Gram Panchayat Rasta
46	Rasta	Government	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat Rasta
47	Rasta	Government(Panchayat )	Gair Mumkin	0.0050586	Gram Panchayat Rasta
<b>Village: Husnar (17)</b>					
48	190//10	Government( Panchayat )	Nahari	0.0050586	Gram Panchayat 190//8
49	190//8	Government( Panchayat )	Nahari	0.0227637	Gram Panchayat 190//8
50	190//9	Government( Panchayat )	Nahari	0.0177051	Gram Panchayat 190//9
51	191//10	Private	Nahari	0.0227637	Kulvir Singh S/o Nachattar Singh 1/2, Hakham Singh S/o Bakhtaur Singh 545/2406 Navjot kaur W/o Hakam Singh 658/2406 (4-14), Harchet Singh 797/4138, Gurmeet Singh 797/4138 S/o Nand Singh, Heera Singh S/o Gurmeet Singh 636/2069, Pargat Singh, Sukhvinder Singh S/o Harchet Singh 636/2069 Total (4-13) 191//10
52	191//6/1	Private	Nahari	0.0177051	Sadhu Singh Major Singh Mandir Singh S/o Jarnail Singh 1/6, Sukhdev Singh baldev Singh S/o Gurbax Singh 1/3, Makhan Singh Midda Singh S/o Kishan Singh 1/3, Gurcharan Singh S/o Mukhtar Singh 1/6 191//6/1
53	191//7/1	Private	Nahari	0.0177051	Sadhu Singh Major Singh Mandir Singh S/o Jarnail Singh 1/6, Sukhdev Singh baldev Singh S/o Gurbax Singh 1/3, Makhan Singh Midda Singh S/o Kishan Singh 1/3,

					Gurcharan Singh S/o Mukhtar Singh 1/6 191//7/1
54	191//8	Private	Nahari	0.0202344	Kulvir Singh S/o Nachattar Singh 1/2, Hakham Singh S/o Bakhtaur Singh 545/2406 Navjot Kaur W/o Hakam Singh 658/2406 191//8
55	191//9	Private	Nahari	0.0227637	Kulvir Singh S/o Nachattar Singh 1/2, Hakham Singh S/o Bakhtaur Singh 545/2406 Navjot Kaur W/o Hakam Singh 658/2406 191//9
56	192//1	Private	Nahari	0.0101172	Sadhu Singh Major Singh Mandir Singh S/o Jarnail Singh 1/6, Sukhdev Singh baldev Singh S/o Gurbax Singh 1/3, Makhan Singh Midda Singh S/o Kishan Singh 1/3, Gurcharan Singh S/o Mukhtar Singh 1/6 (0-2), Sweety Goyal S/o Ram kumar 3/10, Honey Kumar S/o Bhupinder Kumar, 1/10, Neeraj Singla S/o Subhash Chander 3/10, Vikram jeet S/o Darshan pal 3/10 (2-14) 192//1
57	986	Private	Nahari	0.3642192	Sham Lat Patti Thula Kaula 986
58	995	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat 995
59	Canal	Government	Gair Mumkin	0.2428128	Provisional Government Canal
	<b>Village: Thehri (19)</b>				
60	104//10	Private	Nahari	0.0455274	Jeet Inder Singh S/o Narinder Singh urf Harvinder Singh 104//10
61	104//6	Private	Nahari	0.0101172	Manju Sidhu Wd/o and Simran Sidhu d/o and Harzorawar Singh S/o Bhalinder Singh (3-0), Rajkarni W/o Mohan Singh (3-0) 104//6
62	104//7	Private	Nahari	0.0101172	Manju Sidhu Wd/o and Simran Sidhu d/o and Harzorawar Singh S/o Bhalinder Singh 104//7
63	104//8	Private	Nahari	0.0151758	Manju Sidhu Wd/o and Simran Sidhu d/o and Harzorawar Singh S/o Bhalinder Singh 104//8
64	104//9	Private	Nahari	0.025293	Manju Sidhu Wd/o and Simran Sidhu d/o and Harzorawar Singh S/o Bhalinder Singh 104//9
65	105//10	Private	Gair Mumkin	0.0429981	Jeet Inder Singh S/o Narinder Singh urf Harvinder Singh

					105//10
66	105//6	Private	Nahari	0.0556446	Jeet Inder Singh S/o Narinder Singh urf Harvinder Singh 105//6
67	105//7	Private	Nahari	0.0556446	Jeet Inder Singh S/o Narinder Singh urf Harvinder Singh 105//7
68	105//8	Private	Nahari	0.0328809	Jeet Inder Singh S/o Narinder Singh urf Harvinder Singh 105//8
69	105//9	Private	Nahari	0.0328809	Jeet Inder Singh S/o Narinder Singh urf Harvinder Singh 105//9
70	106//10	Private	Nahari	0.0455274	Baldev Singh sukhdev Singh S/o Mal Singh 1/2, Amerjit Singh S/o Karnail Singh 1/2, 106//10
71	106//8	Private	Nahari	0.0151758	Punjab Water Supply and Sewerage Board 106//8
72	106//9	Private	Nahari	0.0404688	Baldev Singh sukhdev Singh S/o Mal Singh 1/2, Amerjit Singh S/o Karnail Singh 1/2, 106//9
73	107//10	Private	Nahari	0.0455274	Mahinder kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 1248/2172, Gurdev Singh Jagev Singh 352/2172, Baldev Singh 396/2172 S/o Mal Singh, Jagsir Singh lakhvir Singh Sukhvir Singh S/o Binder Singh 176/2172 107//10
74	107//6	Private	Nahari	0.050586	Baldev Singh sukhdev Singh S/o Mal Singh 1/2, Amerjit Singh S/o Karnail Singh 1/2, 107//6
75	107//7	Private	Nahari	0.0556446	Baldev Singh sukhdev Singh S/o Mal Singh 1/2, Amerjit Singh S/o Karnail Singh 1/2, 107//7
76	107//8	Private	Nahari	0.050586	Mahinder kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 1248/2172, Gurdev Singh Jagev Singh 352/2172, Baldev Singh 396/2172 S/o Mal Singh, Jagsir Singh lakhvir Singh Sukhvir Singh S/o Binder Singh 176/2172 107//8
77	107//9	Private	Nahari	0.0455274	Mahinder kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 1248/2172, Gurdev Singh Jagev Singh 352/2172, Baldev Singh 396/2172 S/o Mal Singh, Jagsir Singh lakhvir Singh Sukhvir Singh S/o Binder Singh 176/2172

					107//9
78	108//10	Private	Nahari	0.025293	Satya Kaur D/o Mal Singh S/o Arjan Singh 34/1093 Baldev Singh S/o Mal Singh S/o Arjan Singh 66/1093 Part Jagdev Singh S/o Mal Singh S/o Arjan Singh 66/1093 Part Gurdev Singh S/o Mal Singh S/o Arjan Singh 315/2186 Dilbar Singh S/o Bawa Singh S/o Dula Singh 410/3279 Iqbal Singh S/o Bawa Singh S/o Dula Singh 410/3279 Nek Singh S/o Bawa Singh S/o Dula Singh 410/3279 Prem Singhs S/o Rajinder Singhs S/o Jarnail Singh 68/1093 Dilser Singh S/o Gurdip Singh S/o Jarnail Singh 68/1093 Part Jagsir Singh S/o Binder Singh S/o Mal Singh 105/2186 Sukhbir Singhs S/o Binder Singh S/o Mal Singh 105/2186 Lakhvir Singh S/o Binder Singh S/o Mal Singh 105/2186 Mahinder Kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 66/1093 108//10
79	108//6	Private	Nahari	0.0455274	Mahinder kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 1248/2172, Gurdev Singh Jagev Singh 352/2172, Baldev Singh 396/2172 S/o Mal Singh, Jagsir Singh lakhvir Singh Sukhvir Singh S/o Binder Singh 176/2172 108//6
80	108//7	Private	Nahari	0.0455274	Mahinder kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 1248/2172, Gurdev Singh Jagev Singh 352/2172, Baldev Singh 396/2172 S/o Mal Singh, Jagsir Singh lakhvir Singh Sukhvir Singh S/o Binder Singh 176/2172 108//7
81	108//8	Private	Nahari	0.0455274	Mahinder kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 1248/2172, Gurdev Singh Jagev Singh 352/2172, Baldev Singh 396/2172 S/o Mal Singh, Jagsir Singh lakhvir Singh Sukhvir Singh S/o Binder Singh 176/2172 108//8
82	108//9	Private	Nahari	0.0404688	Mahinder kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 1248/2172, Gurdev Singh Jagev Singh 352/2172, Baldev Singh 396/2172 S/o Mal Singh, Jagsir Singh lakhvir Singh Sukhvir Singh S/o Binder Singh 176/2172 108//9
83	109//10	Private	Nahari	0.0278223	Kulwinder Singh S/o Balkar Singh

					1/2, Bhupinder Singh S/o Nachattar Singh 1893/4214 Harjinder Singh Ranjinder Singh S/o Harpal Singh 214/4214 K NO- 109/8(0-4) K no-10 (0-6), Rajinder pal Singh Balkar Singh S/o Sham Singh 109/8(3-12) k no-10 (3-14) 109//10
84	109//6	Private	Nahari	0.0227637	Satya Kaur D/o Mal Singh S/o Arjan Singh 34/1093 Baldev Singh S/o Mal Singh S/o Arjan Singh 66/1093 Part Jagdev Singh S/o Mal Singh S/o Arjan Singh 66/1093 Part Gurdev Singh S/o Mal Singh S/o Arjan Singh 315/2186 Dilbar Singh S/o Bawa Singh S/o Dula Singh 410/3279 Iqbal Singh S/o Bawa Singh S/o Dula Singh 410/3279 Nek Singh S/o Bawa Singh S/o Dula Singh 410/3279 Prem Singhs S/o Rajinder Singhs S/o Jarnail Singh 68/1093 Dilser Singh S/o Gurdip Singh S/o Jarnail Singh 68/1093 Part Jagsir Singh S/o Binder Singh S/o Mal Singh 105/2186 Sukhbir Singhs S/o Binder Singh S/o Mal Singh 105/2186 Lakhvir Singh S/o Binder Singh S/o Mal Singh 105/2186 Mahinder Kaur Wd/o and Harjeet Singh S/o Sukhdev Singh 66/1093 109//6
85	109//7	Private	Nahari	0.0227637	Gurpreet Singh S/o Jasvir Singh 109//7
86	109//8	Private	Nahari	0.0227637	Kulwinder Singh S/o Balkar Singh 1/2, Bhupinder Singh S/o Nachattar Singh 1893/4214 Harjinder Singh Ranjinder Singh S/o Harpal Singh 214/4214 K NO- 109/8(0-4) K no-10 (0-6), Rajinder pal Singh Balkar Singh S/o Sham Singh 109/8(3-12) k no-10 (3-14) 109//8
87	109//9	Private	Nahari	0.0177051	Rajinder pal Singh Balkar Singh S/o Sham Singh 109//9
88	110//6	Private	Nahari	0.0328809	Kulwinder Singh S/o Balkar Singh 1/2, Bhupinder Singh S/o Nachattar Singh 1893/4214 Harjinder Singh Ranjinder Singh S/o Harpal Singh 214/4214 K NO- 109/8(0-4) K no-10 (0-6), Rajinder pal Singh Balkar Singh S/o Sham Singh 109/8(3-12) k no-10 (3-14) 110//6
89	110//7/1	Private	Nahari	0.0050586	Balwinder Kaur Wd/o and Gurlal Singh S/o Rashpal Singh Equal Share

					110//7/1
90	110//7/2	Private	Nahari	0.0126465	Paramdeep Singh S/o Lakhwinder Singh (1-5) Balwinder Kaur Wd/o and Gurlal Singh S/o Rashpal Singh (1-13) 110//7/2
91	110//8	Private	Nahari	0.0101172	Paramdeep Singh S/o Lakhwinder Singh 110//8
92	112//1	Private	Nahari	0.0177051	Ajaib Singh Shivraj Singh S/o Santokh Singh 112//1
93	112//2	Private	Nahari	0.0177051	Ajaib Singh Shivraj Singh S/o Santokh Singh 112//2
94	112//3/1	Private	Nahari	0.0025293	Ajaib Singh Shivraj Singh S/o Santokh Singh 112//3/1
95	113//1	Private	Nahari	0.0278223	Gurvinder Singh 5 Part, Lakhwinder Singh 160 Part S/o Ajeb Singh, Rajdeep Singh S/o Gurvinder Singh 155 Part 113//1
96	113//2	Private	Nahari	0.0328809	Gurvinder Singh 5 Part, Lakhwinder Singh 160 Part S/o Ajeb Singh, Rajdeep Singh S/o Gurvinder Singh 155 Part (3-0), Charanjit Kaur W/o Nirmal Singh 2/3, Haminder Kaur W/o Harbans Singh 1/3 (7-4) 113//2
97	113//3	Private	Nahari	0.0278223	Jaspreet Singh, Dildeep Singh S/o Rashpal Singh S/o Sugriv Singh and Rashpal Singh S/o Sugriv Singh (Equal Share) 113//3
98	113//4	Private	Nahari	0.0227637	Manjit Singh and Gurdeep Singh S/o Arjun Singh (Equal Share) 113//4
99	113//5	Government	Gair Mumkin	0.0151758	Provisional Government (2-7), Paramjit Singh S/o Inder Singh (6-17) Total Area (9-4) 113//5
100	114//10	Private	Nahari	0.0101172	Gurwinder Singh S/o Balwant Singh 114//10
101	114//6/1	Private	Nahari	0.0025293	Gurvinder Singh 5 Part, Lakhwinder Singh 160 Part S/o Ajeb Singh, Rajdeep Singh S/o Gurvinder Singh 155 Part 114//6/1
102	114//6/2	Private	Nahari	0.0177051	Lakhwinder Singh S/o Ajaib Singh 121/298, Rajdeep Singh S/o Gurwinder Singh 121/1298, Nirmal Singh S/o Teja Singh 28/149

					114//6/2
103	114//7	Private	Nahari	0.0227637	Lakhwinder Singh S/o Ajaib Singh 121/298, Rajdeep Singh S/o Gurwinder Singh 121/1298, Nirmal Singh S/o Teja Singh 28/149 (1-19), Sukhdev Singh S/o Isher Singh (1-2) 114//7
104	114//8	Private	Nahari	0.0151758	Gurwinder Singh S/o Balwant Singh 114//8
105	114//9	Private	Nahari	0.0126465	Gurwinder Singh S/o Balwant Singh 114//9
106	115//10	Private	Nahari	0.0278223	Gurtej Singh S/o Baga Singh 115//10
107	115//6	Private	Nahari	0.0227637	Gurwinder Singh S/o Balwant Singh (3-15), Dilpreet Kaur W/o Baljeet Singh (0-7) 115//6
108	115//7	Private	Nahari	0.0328809	Dilpreet Kaur W/o Baljeet Singh (4-4), Harmandir Singh S/o Balwant Singh (0-7) 115//7
109	115//8	Private	Nahari	0.0328809	Harmandir Singh S/o Balwant Singh 115//8
110	115//9	Private	Nahari	0.0278223	Manjeet Kaur 634/1999 W/o and Amandeep Singh S/o 975/1999 and Ramandeep Kaur and Navdeep Kaur d/o Harminder Singh 390/1999 115//9
111	116//10	Private	Nahari	0.0328809	Paramjit kaur Wd/o 111/362 and Parveen Pal Singh 251/362 S/o Pirthi Singh 116//10
112	116//6	Private	Nahari	0.0278223	Baldev Singh and Gurtej Singh S/o Baga Singh (Equal Share) 116//6
113	116//7	Private	Nahari	0.0227637	Baldev Singh and Gurtej Singh S/o Baga Singh (Equal Share) 116//7
114	116//8	Private	Nahari	0.0278223	Baldev Singh and Gurtej Singh S/o Baga Singh (2-1) (Equal Share), Yuvraj Kumar S/o Gain chand 1/4, Nilam Rani W/o and Gagandeep Singh S/o Mahar Singh 1/2, Gain chand S/o Bakhtawar Singh 1/4 (3-19) 116//8
115	116//9	Private	Nahari	0.0328809	Paramjit kaur Wd/o 111/362 and Parveen Pal Singh 251/362 S/o Pirthi Singh 116//9

116	117//10	Private	Nahari	0.0404688	Baldev Singh son Mehar Singh son Mahana Singh 368/2073 Maheen Singh son of Chitin Kaur daughter Mahan Singh 158/2073 Surjit Kaurs daughter Sukhdev Singhs son Mehar Singh 65/2073 Jagdeep Singh son Sukhdev Singh son Meher Singh 11/2073 Part Dilbag Singh son Dhir Singh son Bhana Singh 77/4146 Jaspal Singh son Pritam Singh son Bhana Singh 215/2073 Part Gurmeh Singh son Pritam Singh son Bhana Singh 215/2073 Part Rajvinder Singh son Joginder Singh son Mehar Singh 535/4146 Siva Shakti Education Section Gidbaha 7/2073 Surinder Pal Singh son Jagdeep Singh son Sukhdev Singh 1/4146 Amarpal Singh son Harjit Singh son Sukhdev Singh 1/4146 Narinder Kaurs daughter Joginder Singhs son Maher Singh Part 163/2073 Baljinder Kaur daughter Joginder Singh son Mehar Singh 163/2073 Part Paramjit Kaur Widow Pirthi Pal Singh Son Joginder Singh 65/4146 Part Bhupinder Kaurs daughter Piathi Pal Singhs son Joginder Singh 19/1382 Sarupinder Kaurs daughter Piathi Pal Singhs son Joginder Singh 19/1382 Harinderpal Singh son Piathi Pal Singh son Joginder Singh Part 21/691 Parveenpal Singhs son Piathi Pal Singhs son Joginder Singh 21/691 Birvinder Singh son Rajwinder Singh son Joginder Singh 35/1382 Part Edward Ganj Public Welfare Association Associate Registrar Malout Muktsar Sahib 91/2073 Part Amarjit Kaurs wife Gurdial Singh son Ujgar Singh 14/691 117//10
117	117//6	Private	Nahari	0.0303516	Paramjit kaur Wd/o 111/362 and Parveen Pal Singh 251/362 S/o Pirthi Singh 117//6
118	117//7	Private	Nahari	0.0328809	Sukhjeet Kaur W/o 128/1885 and Dilbag Singh 367/1885 S/o Dhir Singh , Baldev Singh S/o Mehar Singh 943/1885, Jaspal Singh 102/1885 and Gurmail Singh 111/1885 S/o Pritam Singh, Jagdeep Singh 77/1885 S/o and Surjeet Kaur 157/1885 d/o Sukhdev Singh 117//7
119	117//8	Private	Nahari	0.0278223	Sukhjeet Kaur W/o 128/1885 and

					Dilbag Singh 367/1885 S/o Dhir Singh , Baldev Singh S/o Mehar Singh 943/1885, Jaspal Singh 102/1885 and Gurmail Singh 111/1885 S/o Pritam Singh, Jagdeep Singh 77/1885 S/o and Surjeet Kaur 157/1885 d/o Sukhdev Singh 117//8
120	117//9/1	Private	Nahari	0.0151758	Sukhjeet Kaur W/o 128/1885 and Dilbag Singh 367/1885 S/o Dhir Singh , Baldev Singh S/o Mehar Singh 943/1885, Jaspal Singh 102/1885 and Gurmail Singh 111/1885 S/o Pritam Singh, Jagdeep Singh 77/1885 S/o and Surjeet Kaur 157/1885 d/o Sukhdev Singh 117//9/1
121	117//9/2	Private	Nahari	0.0177051	Baldev Singh son Mehar Singh son Mahana Singh 368/2073 Maheen Singh son of Chitin Kaur daughter Mahan Singh 158/2073 Surjit Kaurs daughter Sukhdev Singhs son Mehar Singh 65/2073 Jagdeep Singh son Sukhdev Singh son Meher Singh 11/2073 Part Dilbag Singh son Dhir Singh son Bhana Singh 77/4146 Jaspal Singh son Pritam Singh son Bhana Singh 215/2073 Part Gurmel Singh son Pritam Singh son Bhana Singh 215/2073 Part Rajvinder Singh son Joginder Singh son Mehar Singh 535/4146 Siva Shakti Education Section Gidbaha 7/2073 Surinder Pal Singh son Jagdeep Singh son Sukhdev Singh 1/4146 Amarpal Singh son Harjit Singh son Sukhdev Singh 1/4146 Narinder Kaurs daughter Joginder Singhs son Maher Singh Part 163/2073 Baljinder Kaur daughter Joginder Singh son Mehar Singh 163/2073 Part Paramjit Kaur Widow Pirthi Pal Singh Son Joginder Singh 65/4146 Part Bhupinder Kaurs daughter Piathi Pal Singhs son Joginder Singh 19/1382 Sarupinder Kaurs daughter Piathi Pal Singhs son Joginder Singh 19/1382 Harinderpal Singh son Piathi Pal Singh son Joginder Singh Part 21/691 Parveenpal Singhs son Piathi Pal Singhs son Joginder Singh 21/691 Birvinder Singh son Rajwinder Singh son Joginder Singh 35/1382 Part Edward Ganj Public Welfare Association Associate Registrar Malout Muktsar Sahib 91/2073 Part

					Amarjit Kaurs wife Gurdial Singh son Ujgar Singh 14/691 117/9/2
122	118//10	Private	Nahari	0.0227637	Ashok Kumar son Ram Pratap son Raunak Ram 40/207 share Anil Kumar son Abnash Chandra son Buta Ram 40/207 share Dharmachand son Indermal son Mohan Lal 461/1863 Part Bhupinder Singh son Harnek Singh son Narain Singh 5/81 Ramandeep Singh son Gurmeet Singh son Harcharan Singh 17/69 Jatinder Kaur Wife Gurmel Singh Son Karnail Singh 4/69 118//10
123	118//6/2	Private	Nahari	0.0278223	Dilbag Singh S/o Dhir Singh 118//6/2
124	118//7	Private	Nahari	0.0328809	Dilbag Singh S/o Dhir Singh 118//7
125	118//8	Private	Nahari	0.0278223	Edwardganj Public Welfare Association 118//8
126	118//9	Private	Nahari	0.0227637	Malvinder Singh Son Jeevan Singh Son Seva Singh 19/101 Part GURIKBAL Singh SON Jeevan Singh Sewa Singh 19/101 Part Preampal Singh son Jeevan Singh son Seva Singh 19/101 Deepak Kumar son Nathu Ram son Dana Ram 10/101 Usha Rani wife Nathu Ram son Dana Ram 10/101 share Jatinder Kaur Wife Gurmel Singh Son Karnail Singh 24/101 118//9
127	119//11	Private	Nahari	0.0126465	Gajjan Singh son Kakar Singh son Mah Singh 969/2422 Part Pritam Singh son Nikka Singh son Pratap Singh 969/2422 Part Mohan Lal Son Ram Pratap Son Raunak Ram 7/173 Part Ashok Kumar son Ram Partap son Raunak Ram 7/173 Sarita Ranis wife Mahendra Kumars son Avinash Chandra 7/346 share Sunita Rani wife Ashok Kumar son Avinash Chandra 7/346 share Poonam Rani wife Ravinder Kumar son Avinash Chandra 7/346 share Pinky wife Anil Kumar Avinash Chandra 7/346 share Harpal Singh son Sukhdev Singh son Bachittar Singh 10/1211 Part Shivraj Singh son Sukhdev Singh son Bachittar Singh 10/1211 Gurcharan Singh son Bachittar Singh son Bhajan Singh Part 23/2422 Sukhraj Singh son Gurcharan Singh son Bachittar

					Singh Part 23/2422 Amarjit Kaur widow Sukhdev Singh son Bachittar Singh 3/1211 Part 119//11
128	119//6	Private	Nahari	0.0278223	Shiv Shakti Education Society (3-14), Dharmachand son Indermal son Mohan Lal 259/1125 Bhupinder Singh son Harnek Singh son Narain Singh Part 13/225 Bhola daughter Karnail Singh son Bala Singh 1/5 part Sukhdeep Kaurs wife Rajpal Singh son Mohan Singh 7/25 Ramndeeep Singh son Gurmeet Singh son Harcharan Singh 29/125 (5-8) 119//6
129	119//7	Private	Nahari	0.0328809	Shiv Shakti Education Society Gidderbaha 119//7
130	119//8	Private	Nahari	0.0303516	Shiv Shakti Education Society Gidderbaha 119//8
131	119//9	Private	Nahari	0.0227637	Gajjan Singh son Kakar Singh son Mah Singh 969/2422 Part Pritam Singh son Nikka Singh son Pratap Singh 969/2422 Part Mohan Lal Son Ram Pratap Son Raunak Ram 7/173 Part Ashok Kumar son Ram Partap son Raunak Ram 7/173 Sarita Ranis wife Mahendra Kumars son Avinash Chandra 7/346 share Sunita Rani wife Ashok Kumar son Avinash Chandra 7/346 share Poonam Rani wife Ravinder Kumar son Avinash Chandra 7/346 share Pinky wife Anil Kumar Avinash Chandra 7/346 share Harpal Singh son Sukhdev Singh son Bachittar Singh 10/1211 Part Shivraj Singh son Sukhdev Singh son Bachittar Singh 10/1211 Gurcharan Singh son Bachittar Singh son Bhajan Singh Part 23/2422 Sukhraj Singh son Gurcharan Singh son Bachittar Singh Part 23/2422 Amarjit Kaur widow Sukhdev Singh son Bachittar Singh 3/1211 Part 119//9
132	226	Government	Gair Mumkin	0.126465	Provisional Government 226
133	271	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0455274	Gram Panchayat 271
134	533	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat 533
135	534	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat 534

136	535	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat 535
137	541	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat 541
138	569	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat 569
139	570	Government( Panchayat )	Gair Mumkin	0.0025293	Gram Panchayat 570
140	Canal	Government	Gair Mumkin	0.0025293	Provisional Government Canal
			<b>TOTAL</b>	<b>3.8268309</b>	

[F.No. 25044/NHAI/PIU/BTI/2018/URS/P-II/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.